



**राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक**

साआधिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 4, सोमवार, शाके 1941 अगस्त 26, 2019

Bhadra 4, Monday, Saka 1941–August 26, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

RAJASTHAN, JAIPUR

ORDER

Jaipur August 14, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 2446 .-In exercise of powers conferrd under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009, and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal Officer corporation Jaipur has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Corporation Jaipur. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal Officer.

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Governement

प्रारूप “क”

जयपुर नगर निगम के पुनर्सीमांकित वार्डों का विवरण वर्ष-2019

| क्रम संख्या | विधानसभा क्षेत्र का नाम | नक्शे के आधार पर वार्डों क्रमांक | नवगठित वार्डों का विवरण | नवगठित वार्ड की जनसंख्या |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 1 | एनएच-11 पर नींदड़ मोड़ के सामने संजीवनी मेड़ीकल से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर चलते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरमाड़ा को शामिल करते हुए पीएचडी ऑफिस से पूर्व की तरफ पहाड़ी के नीचे-नीचे मंशा माता से पहाड़ी क्षेत्र नगर निगम सीमा को शामिल करते हुए बड़ पीपली स्टैण्ड नगर निगम सीमा से सीकर रोड एनएच-11 तक, सीकर रोड एनएच-11 बड़ पीपली से आगे पश्चिम में नगर निगम व विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर की सीमा के साथ-साथ जयरामपुरा रोड तक, यहां से दक्षिण-पूर्व चलते हुए नींदड़ घाटी तक, यहां से पूर्व में भारत नगर कच्ची बस्ती को शामिल करते हुए एनएच-11 तक बायें हाथ का समस्त क्षेत्र। | 21473 |
| 2 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 2 | एनएच-11 नींदड़ मोड़ से प्रारम्भ होकर नींदड़ घाटी से नगर निगम व विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर सीमा तक सम्पूर्ण बायां क्षेत्र, मांचड़ा गांव को सम्मिलित करते हुए नगर निगम सीमा लोहा मण्डी तक, वहां से पूर्व दिशा में नई लोहा मण्डी रोड से | 20157 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|-------|
| | | | होते हुए संगम कॉलोनी बांगड़ा भवन बाईपास तक, बाई पास से दक्षिण पश्चिमी तरफ बाई पास के सहारे सहारे पुर्व हिस्से को सम्मिलित करते हुए मनीष सर्विस स्टेशन तक यहां से बाये मुड़कर पूर्व दिशा की तरफ अनाज मण्डी की सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए होटल गैलेक्सी इन के पास सीकर रोड तक। यहां से उत्तर दिशा में सीकर रोड एनएच-11 पर नीदड़ मोड़ तक का सम्पूर्ण बायां क्षेत्र | |
| 3 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 3 | सीकर रोड एनएच-11 संजीवनी मेडीकल से पीएचडी ऑफिस हरमाड़ा से पहाड़ी के नीचे-नीचे मंशा माता की तरफ नगर निगम सीमा तक दक्षिणी भाग, दिल्ली बाईपास तक, दिल्ली बाईपास से अमानीशाह नाले तक नगर निगम व विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर की सीमा तक, बीड़ जैसल्या, रोड नं. 17 को सम्मिलित करते हुए उत्तर दिशा में बस स्टैण्ड रोड नं. 17 से दायें तरफ भारतीय बैंक से बाये मुड़कर दिल्ली ट्रासपोर्ट कम्पनी तक, नीलमणी मार्बल को सम्मिलित करते हुए पश्चिमी तरफ रोड नं. 15 लक्ष्मी ब्रेड फेयरडील रोड नं. 13 शक्ति माल्ट, यहां से पश्चिम की तरफ शिवा होटल रोड नं. 12 तक, शिवा होटल से उत्तरी तरफ संजीवनी मेडीकल सीकर रोड तक पूर्व का सम्पूर्ण क्षेत्र। | 21871 |
| 4 | विद्याधर नगर विधान 5सभा क्षेत्र | 4 | दिल्ली बाईपास के पास पश्चिम तरफ, बागड़ा भवन लोहा मण्डी रोड के कोने से लोहा मण्डी सड़क पर सीधे चलते हुए पश्चिम में बाया भाग नगर निगम सीमा तक, वहां से दक्षिण में रेल्वे लाईन बालाजी कॉलेज के पीछे से मुख्य बैनाड़ रोड पर सीतावाली फाटक होते हुए ज्याला माता मंदिर ओमशिव प्लाजा से उत्तर-पूर्व में चरणनदी में शिव मन्दिर तिराहे से सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चाणक्य पार्क तक बायां भाग, दक्षिण की तरफ चरण नदी स्कूल की तरफ चलते हुए ट्रांसफार्मर तक यहां से पूर्व में चलते हुए बाईपास तक, बाईपास के साथ-साथ उत्तर-पूर्व की तरफ बागड़ा भवन तक | 18206 |
| 5 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 5 | होटल गैलेक्सी इन सीकर रोड से प्रारम्भ होकर जयपुर की तरफ रोड नं. 02 मित्तल ब्रदर्स तक यहां से पश्चिम तरफ मुरलीपुरा की तरफ चलते हुए जाट भवन लाल डिब्बा चौराहा तक, यहां से उत्तर की तरफ राहुल टेलर्स तक, राहुल टेलर्स से पश्चिम में चलते हुए केंडिया पैलेस रोड तक, यहां से उत्तर की ओर चलते हुए तिराहे तक, यहां से पश्चिम चलते हुए हाईटेंशन लाईन तक, हाईटेंशन लाईन के नीचे-नीचे चलते हुए जमनापुरी पार्क तक, यहां से जाखड़ भवन से पश्चिम में चलते हुए दाये मुड़कर चौराहे तक, यहां से बाये मुड़कर वैध जी के चौराहे तक, यहां से बाये मुड़कर पश्चिम में दिल्ली बाईपास तक, यहां से उत्तर-पूर्व में बाईपास के सहारे-सहारे मनीष सर्विस स्टेशन तक, यहां से दाये मुड़कर अनाज मण्डी की दक्षिणी दीवार के सहारे-सहारे | 19676 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|-------|
| | | | होटल गेलेक्सी इन सीकर रोड तक का सम्पूर्ण क्षेत्र। | |
| 6 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 6 | सीकर रोड़ अल्का सिनेमा के सामने से पूर्व की तरफ प्रारम्भ होकर मन्दिर मोड़ सर्किल तक, मन्दिर मोड़ सर्किल से उत्तर की तरफ सरस डेयरी 1999 तक, यहां से पूर्व में स्वर्ण जयन्ती पार्क तक, मन्दिर मोड़ से पापड़ के हनुमान जी को सम्मिलित करते हुए अमानीशाह नाले की तरफ नगर निगम सीमा तक, नगर निगम व विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर की सीमा रोड़ नं. 17 बस स्टैण्ड तक, यहां से रोड़ नं. 17 से पश्चिमी तरफ रोड़ नं. 15 लक्ष्मी ब्रेड फेयरडील के सामने का हिस्सा, भारतीय स्टेट बैंक से बायें मुडकर दिल्ली ट्रासपोर्ट कम्पनी तक, यहां से पश्चिम रोड़ नं. 13 शक्ति माल्ट से पश्चिम की तरफ शिवा होटल तक बायां हिस्सा सीकर रोड़ तक, सीकर रोड़ पर चलते हुए अल्का सिनेमा तक का सम्पूर्ण क्षेत्र। | 18175 |
| 7 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 7 | बैनाड़ रोड पर पुलिया के पास धाकड़ साईकिल स्टोर (होटल राज इन) के बगल से पश्चिम की तरफ चलते हुए तिवाड़ी डिपार्टमेन्टल को सम्मिलित करते हुए भावना फ्लोर मिल निर्मल विहार तक, यहां से उत्तर की तरफ मैन श्याम नगर रोड़ पर चलते हुए नेहा फैन्सी स्टोर बैनाड़ रोड़ तक यहां से रेल्वे लाईन पार कर ओम शिव प्लाजा (ज्याला माता मन्दिर) उत्तर-पूर्व में चरण नदी में चलते हुए शिव मन्दिर तिराहे तक, यहां से चाणक्य पार्क प्राथमिक विकित्सा केन्द्र के सामने दक्षिणी हिस्सा सम्मिलित करते हुए गायत्री सदन सरकारी स्कूल से बांयी तरफ पूर्व में चलते हुए बाईपास तक, बाईपास पर उत्तर-पूर्व की तरफ चलते हुए हाईटेंशन लाईन तक यहां से पूर्व की तरफ वैधजी के चौराहे तक यहां से दायें मुडकर जाखड़ भवन तक, यहां से दायें मुडकर पूर्व में जमनापुरी पार्क तक, यहां से दायें मुडकर दक्षिण-पश्चिम हाईटेंशन लाईन के नीचे-नीचे प्रताप चौधरी के मकान के सामने से होते हुए सीधे रेल्वे लाईन बैनाड़ रोड़ तक सम्पूर्ण क्षेत्र। | 18274 |
| 8 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 8 | दिल्ली बाईपास नांगल पुलिया से उत्तर-पूर्वी तरफ बाईपास के सहारे-सहारे रेल्वे लाईन तक, यहां से रेल्वे लाईन पारकर हाईटेंशन लाईन के नीचे-नीचे उत्तर-पूर्व में चलते हुए प्रताप चौधरी के मकान के सामने तक यहां से पूर्व में केड़िया पैलेस रोड़ तक, यहां से दक्षिण साईड में घूमकर केड़िया पैलेस चौराहे तक, यहां से पश्चिम साईड पैट्रोल पम्प तक, यहां से दक्षिण साईड घूमकर दादी का फाटक चौराहे तक, यहां से दादी का फाटक पुलिया रेल्वे लाईन तक, यहां से पश्चिम दिशा में चलते हुए कमानी फैकट्री दीवार के पीछे का हिस्सा सम्मिलित होते हुए सालासर वाटिका दालमिल तक, यहां से नांगल पुलिया तक सम्पूर्ण क्षेत्र। | 18743 |
| 9 | विद्याधर नगर | 9 | परसरामपुरिया प्रोपट्री सीकर रोड से प्रारम्भ होकर | 17898 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|----|--|-------|
| | विधान सभा क्षेत्र | | सीकर रोड चौमूँ की तरफ उत्तर दिशा में चलते हुए 2 नं. बस स्टैण्ड तक बायी तरफ का क्षेत्र। यहां से बायी तरफ मुडकर पश्चिम की तरफ चलते हुए लाल डिब्बा चौराहे तक पूर्व का क्षेत्र लाल डिब्बा चौराहे से दाये मुडकर उत्तर की तरफ चलते हुए तिराहे तक बायी तरफ का क्षेत्र लेते हुए राहुल टेलर तिराहे से बाये मुडकर सीधे चलते हुए मुरलीपुरा स्कीम के भाग से शामिल करते हुए केडिया पैलेस रोड तक, यहां से बाये मुडकर दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए सीधे केडिया पैलेस चौराहे तक, बाये भाग का क्षेत्र, केडिया पैलेस चौराहे से बाये मुडकर सीकर रोड की तरफ चलते हुए सीकर रोड परसरामपुरिया प्रोपट्री तक बायी तरफ का क्षेत्र। | |
| 10 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 10 | बैनाड़ रोड पुलिया धाकड़ साईकिल स्टोर (होटल राज इन) से चलते हुए (बायां हिस्सा) यहां से भावना फ्लोर मिल, यहां से उत्तर दिशा के भीतर श्याम नगर मैन रोड होते हुए नेहा फैन्सी स्टोर बैनाड़ रोड तक, यहां से बैनाड़ रोड पर चलते हुए सीतावाली फाटक के आगे पश्चिम साईड में नगर निगम सीमा तक यहां से बायीं तरफ नगर निगम व विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर सीमा, राजस्व ग्राम नांगल जैसा बोहरा के समस्त क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए निवारू पुलिया तक, निवारू पुलिया से बाईपास के नीचे-नीचे चलते हुए रेलवे लाईन तक सम्पूर्ण क्षेत्र। | 21528 |
| 11 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 11 | जी.के.डी. फैक्ट्री झोटवाडा रिको बोरिंग रोड पर से 200 फीट बाईपास की तरफ चलते हुए दरबार स्कूल के सामने का क्षेत्र लेते हुए जयपुर डेयरी बूथ न० 5745 तक का क्षेत्र। यहां से दाये मुडकर उत्तर दिशा में चलते हुए नेताजी की चक्की (निवारू रोड) तक दायी तरफ का क्षेत्र। यहां से बाये मुडकर उत्तर पूर्व दिशा में चलते हुए 200 फीट बाईपास तक दायी तरफ का क्षेत्र। यहां से दाये मुडकर उत्तर पूर्व दिशा में चलते हुए 200 फीट बाईपास एच.टी. लाईन के अन्दर का क्षेत्र लेते हुए नागंल जैसा बोहरा रोड तक यहां से दाये मुडकर दक्षिण पूर्व दिशा में चलते हुए ग्राम नागंल जैसा बोहरा को छोड़ते हुए दाहिनी ओर झोटवाडा ओद्योगिक क्षेत्र को शामिल करते हुए ओद्योगिक क्षेत्र की सीमा के सहारे सहार उत्तर पूर्व दिशा से चलते हुए और सीकर रेलवे लाईन तक। यहां से दायी तरफ मुडकर दक्षिण दिशा में रेलवे लाईन के साथ-साथ कमानी फैक्ट्री तिराहे तक। यहां से दायी ओर मुडकर चलते हुए झोटवाडा थाने के सामने निवारू रोड तिराहे तक। यहां से पश्चिम दिशा में निवारू रोड पर चलते हुए शारदा फैक्ट्री को छोड़ते हुए शालीमार चौराहे तक। यहां से बाये मुडकर दक्षिण दिशा में चलते हुए जी.के.डी. फैक्ट्री चौराहे तक बायी तरफ का क्षेत्र। | 19364 |
| 12 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 12 | सीकर रोड परसरामपुरिया प्रोपट्री से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा की तरफ केडिया पैलेस रोड पर चलते हुए बाये भाग का क्षेत्र लेते हुए सालासर मिष्ठान | 19752 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|----|---|-------|
| | | | भण्डार तक। यहां से केंद्रिया पैलेस रोड पर बाये मुडकर दक्षिण दिशा में एम आर स्वीट्स चौराहे तक। यहां से दाये मुडकर पश्चिम दिशा में चलते हुए दादी का फाटक रेल्वे लाईन तक, रेल्वे लाईन से बाये मुडकर रेल्वे लाईन के सहारे सहारे भवानी निकेतन की सीमा तक, बाये भाग का क्षेत्र लेते हुए भवानी निकेतन की सीमा तक। यहां से भवानी निकेतन की सीमा के सहारे सहारे चलते हुए भवानी निकेतन विवाह स्थल तक, बायी और का क्षेत्र। यहां से बाये मुडकर उत्तर दिशा में चलते हुए प्रताप नगर चौराहे तक, चौराहे से दाये मुडकर पूर्व दिशा में पुराना मुरलीपुरा रोड लेते हुए सीकर रोड तक। यहां से बाये मुडकर उत्तर दिशा में परसरामपुरिया प्रोपट्री बायी तरफ का क्षेत्र। | |
| 13 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 13 | सीकर रोड अल्का सिनेमा के सामने से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा में भगवान परशुराम सर्किल से विद्याधर नगर की तरफ चलते हुए दायी तरफ का क्षेत्र लेते हुए मन्दिर मोड सर्किल तक। यहां से दाये मुडकर दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में जे.पी. कॉलोनी की तरफ चलते हुए कृष्णा लेमिनेट्स के सामने तिराहे तक। यहां से दाये मुडकर पश्चिम दिशा में चलते हुए जैन ट्रेडिंग कम्पनी को छोड़ते हुए एम.जी.पी.एस. के सामने तक। यहां से बाये मुडकर दक्षिण दिशा में मालरोड पर चलते हुए ए.डब्लू.एच.ओ. वर्कर्ट्स चौराहे तक। यहां से दाये मुडकर पश्चिम दिशा में खण्डेलवाल टावर्स को शामिल करते हुए अमूल आईसीमी पार्लर को शामिल करते हुए तिराहे से दाये मुडकर सीकर रोड पर शंकर ढाबा तक। यहां से दाये मुडकर उत्तर दिशा में सीकर रोड पर चलते हुए अल्का सिनेमा तक दायी तरफ का क्षेत्र। | 21539 |
| 14 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 14 | अमानीशाह नाला आर.पी.ए. रोड से प्रारम्भ होकर उत्तर पश्चिम दिशा में जे.पी. कॉलोनी की तरफ चलते हुए जे.पी. कॉलोनी को शामिल करते हुए मन्दिर मोड सर्किल तक दायी तरफ का क्षेत्र। सर्किल से एस.बी.आई. और एक्सीस बैंक ए.टी.एम. के सामने वाली रोड से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए जयपुर डेयरी बूथ न0 1999 तक सेक्टर 8 का क्षेत्र शामिल करते हुए, यहां से दाये मुडकर चलते हुए, अमानीशाह नाल तक स्वर्ण जयंती पार्क को शामिल करते हुए। यहां से दाये मुडकर दक्षिण दिशा में अमानीशाह नाल होते हुए विद्याधर नगर विधानसभा की सीमा तक के क्षेत्र को शामिल करते हुए आर.पी.ए रोड तक दायी तरफ का क्षेत्र। | 22310 |
| 15 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 15 | चौमू पुलिया पर राव शेखाजी सर्किल प्रारम्भ होकर सीकर रोड पर उत्तर दिशा में चलते हुए दाये भाग का क्षेत्रफल लेते हुए शंकर ढाबा तक शंकर ढाबा से दाये मुडकर पूर्व दिशा में विद्याधर नगर की तरफ चलते हुए श्री बालाजी फर्नीचर वर्क्स तक वहां से बाये मुडकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दायी तरफ का क्षेत्र माल रोड उत्तर दिशा में चलते हुए | 18821 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|----|---|-------|
| | | | बियानी गल्स कॉलेज तक पूर्व का क्षेत्र। बियानी कॉलेज से दाये मुडकर पूर्व की तरफ चलते हुए आरपीए रोड कृष्णा लेमीनेट्स के सामने तक दाये तरफ का क्षेत्र। तिराहे से आरपीए रोड अमानीशाह नाले के ऊपर से विद्याधर नगर विधानसभा की बाउण्ड्री अमानीशाह नाले के सहारे—सहारे होते हुए झोटवाडा रोड तक दायी तरफ का क्षेत्र लेते हुए झोटवाडा रोड से दायी तरफ मुडकर पश्चिम दिशा में राव शेखाजी सर्किल तक दाये भाग का क्षेत्र। | |
| 16 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 16 | झोटवाडा सर्किल से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चौमूँ पुलिया की तरफ चलते हुए चौमूँ पुलिया से आगे झोटवाडा रोड पर पानीपेच तिराहे तक। दाये भाग का क्षेत्र पानीपेच तिराहे से दाये मुडकर दक्षिण दिशा में रेल्वे स्टेशन चलते हुए दाये भाग का क्षेत्र लेते हुए रेल्वे जंक्शन तक दाये भाग का क्षेत्र। जयपुर जंक्शन से यूटर्न लेकर रेल्वे लाईन के सहारे सहारे पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए दाये भाग का क्षेत्र लेते हुए अमानीशाह नाला होते हुए सैन्य क्षेत्र से होकर खातीपुरा रोड पुलिया तक रेल्वे लाईन उत्तर का क्षेत्र लेते हुए पुलिया से दायी तरफ उत्तर पूर्व मुडकर झोटवाडा सर्किल तक दाये भाग का क्षेत्र। | 19702 |
| 17 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 17 | राव शेखाजी सर्किल से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की ओर सीकर रोड पर चलते हुए बायाँ भाग का क्षेत्र चलते हुए पुराने मुरलीपुरा रोड तक। वहां से बाये मुडकर पश्चिम दिशा में पुराने मुरलीपुरा रोड पर चलते हुए प्रताप नगर चौराये तक पूर्व का क्षेत्र। प्रताप नगर चौक से बाये मुडकर दक्षिण की तरफ चलते हुए भवानी निकेतन विवाह स्थल तक यहां से भवानी निकेतन परिसर की सीमा के साथ—साथ पश्चिम दिशा में चलते हुए सीकर रेल्वे लाईन तक, यहां से दक्षिण (बाये तरफ) भवानी निकेतन सीमा के साथ—साथ विवेकानन्द कॉलोनी गंगा शुगर मील ट्राइटन माल व बिग्रेडियर का बंगला छोड़ते हुए बायी तरफ का समस्त क्षेत्र। | 18736 |
| 18 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 18 | मेडिकल सेन्टर कालवाड रोड से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए बृजबाल मंदिर स्कूल चौराहा तक बायी तरफ का क्षेत्र चौराहे से बायी तरफ मुडकर पूर्व दिशा खातीपुरा रोड तक उत्तर का क्षेत्र, खातीपुरा रोड से बायी तरफ मुडकर उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए झोटवाडा सर्किल तक सर्किल से घुमकर पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए भवानी निकेतन स्कूल की बाउण्ड्री तक बायी तरफ का क्षेत्र लेते हुए। भवानी निकेतन की बाउण्ड्री के सहारे चलते हुए कमानी फैक्ट्री तिराहे तक कमानी फैक्ट्री तिराहे से यूटर्न लेकर बाये भाग का क्षेत्र लेते हुए झोटवाडा थाने के सामने निवारु रोड। निवारु रोड तिराहे से दाये घुमकर निवारु रोड क्षेत्र के सहारे सहारे शारदा फैक्ट्री तिराहे तक दक्षिण का क्षेत्र लेते हुए शारदा फैक्ट्री तिराहे से दक्षिण तरफ | 21330 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|----|---|-------|
| | | | चलते हुए पूर्व दिशा क्षेत्र लेते हुए पंचायत समिति के लिए कालवाड रोड तक। कालवाड रोड से घुमकर मेडिकल सेन्टर तक दक्षिण का क्षेत्र। | |
| 19 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 19 | कालवाड रोड पंचायत समिति के सामने वाले रास्ते के कॉर्नर से पश्चिम दिशा की ओर कालवाड रोड पर चलते हुए बोरिंग रोड चौराहे तक। यहां से दाये मुडकर उत्तर दिशा में बोरिंग रोड पर चलते हुए शालीमार चौराहा निवारू रोड, शालीमार चौराहे से दाये मुडकर पूर्व दिशा में निवारू रोड, पर झोटवाडा थाने की ओर चलते हुए शारदा फैक्ट्री तिराहे तक यहां से दाया मुडकर दक्षिण दिशा में सीधे चलते हुए कालवाड रोड पंचायत समिति के सामने तक का क्षेत्र। | 19952 |
| 20 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 20 | कालवाड रोड पर बोरिंग रोड चौराहे से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा में दिल्ली 200 फीट बाईपास तक दाये तरफ का क्षेत्र यहां से दाये मुडकर उत्तर दिशा की दिल्ली बाईपास के अन्दर का क्षेत्र लेते हुए निवारू रोड तक। यहां से दाया मुडकर पूर्व दिशा में झोटवाडा थाने की तरफ चलते हुए दाये तरफ का क्षेत्र लेते हुए नेताजी की चक्की तक नेताजी की सामने वाली रोड पर दाये मुडकर चलते हुए जयपुर डेयरी बूथ 5745 के सामने तक दायी तरफ का क्षेत्र। यहां से बाये मुडकर चलते हुए दरबार स्कूल की तरफ का क्षेत्र शामिल करते हुए आगे जीकेडी इण्डिया लिमिटेड फैक्ट्री चौराये तक। यहां से दाया मुडकर दक्षिण दिशा में बोरिंग रोड पर चलते हुए कालवाड रोड बोरिंग चौराहे तक का क्षेत्र। | 23287 |
| 21 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 21 | कालवाड रोड पर दिल्ली बायपास पुलिया से प्रारम्भ होकर दाये भाग का क्षेत्र लेते हुए पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए कांटा चौराहे तक, कांटा चौराहे से दायी तरफ मुडकर पश्चिम भाग का क्षेत्र लेते हुए सीधे दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए फुलेरा जयपुर रेल्वे लाईन तक रेल्वे लाईन से दायी तरफ मुडकर पश्चिम दिशा में लाईन के सहारे-सहारे दिल्ली बाईपास रोड, दायी तरफ मुडकर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए दिल्ली बायपास के अन्दर का क्षेत्र लेते हुए कालवाड रोड तक। | 23332 |
| 22 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 22 | कांटा चौराहा, कालवाड रोड से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए बाये भाग (पूर्व) का क्षेत्र लेते हुए फुलेरा जयपुर रेल्वे लाईन तक, वहां से बायी तरफ मुडकर पूर्व दिशा की तरफ चलकर खातीपुरा पुलिया तक उत्तर का क्षेत्र खातीपुरा पुलिया के नीचे से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए खातीपुरा रोड पर ओमशिव रबड़ी भण्डार तक रबड़ी भण्डार से बायी तरफ मुडकर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए ब्रजबाल मंदिर स्कूल तक दक्षिण दिशा क्षेत्र चौराहा से दायी तरफ मुडकर उत्तर की तरफ चलते हुए कालवाड रोड पर मेडिकल सेन्टर तक बायी तरफ का क्षेत्र मेडिकल सेन्टर से पश्चिम की तरफ चलते हुए कांटा चौराहा तक दक्षिण दिशा का | 24644 |

| | | | क्षेत्र। | |
|----|--------------------------------------|----|--|-------|
| 23 | विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र | 23 | पांच्यावाला पुलिया सिरसी रोड से पैट्रोल पम्प से पूर्व की ओर चलते हुए बाये भाग का क्षेत्र खातीपुरा तिराहे से बायी ओर मुडकर उत्तर की तरफ चलते हुए खातीपुरा पुलिया के नीचे रेल्वे लाइन तक बाये तरफ का क्षेत्र, यहां के पश्चिम की तरफ रेल्वे लाइन के सहारे सहारे चलते हुए बाये भाग का क्षेत्र खिरणी फाटक पुलिया तक वहां से बाये घुमते हुए दक्षिण दिशा में दिल्ली बायपास रोड के अन्दर का क्षेत्र पांच्यावाला पुलिया तक। | 25026 |
| 24 | झोटवाडा विधानसभा क्षेत्र | 24 | कालवाड़ रोड पर रावण गेट के कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पश्चिमी हिस्से को शामिल करते हुए बालाजी मंदिर तक, बालाजी मंदिर से सैनी मार्ग पर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए उत्तरी हिस्से को सम्मिलित करते हुए शेखावत मार्ग तक, शेखावत मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए कृष्णा अलंकार ग्रुप टाउनशिप के कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए उत्तरी हिस्से को सम्मिलित करते हुए वर्षा फार्म दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस हाईवे तक, दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस हाईवे से उत्तर की ओर चलते हुए पश्चिमी हिस्से को सम्मिलित करते हुए निवारु रोड अण्डर पास से उत्तर की ओर खिलानियों की ढाणी की तरफ चलते हुए पश्चिम भाग को लेते हुए, नगर निगम सीमा की ओर चलते हुए हरनाथ पुरा ग्राम राजस्व की सीमा से पश्चिम की ओर चलते हुए दक्षिणी भाग को सम्मिलित करते हुए हरनाथ पुरा ग्राम राजस्व की सीमा से हरनाथ पुरा गांव की राजस्व सीमा को लेते हुए पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए निवारु लिंक रोड होते हुए दक्षिण दिशा में नगर निगम सीमा को सम्मिलित करते हुए कालवाड रोड तक नगर निगम सीमा कालवाड रोड से पूर्व की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को लेते हुए कालवाड रोड रावण गेट के कोने तक। | 20795 |
| 25 | झोटवाडा विधानसभा क्षेत्र | 25 | जयपुर रेलवे लाइन 200 फीट बाईपास दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस के कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को सम्मिलित करते हुए बाईपास के सहारे-सहारे उत्तर दिशा चलते हुए कालवाड रोड से आगे दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर स्थित वर्षा फार्म के कोने तक, वर्षा फार्म के कोने से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए दक्षिणी भाग को सम्मिलित करते हुए शेखावत मार्ग तक, शेखावत मार्ग पर स्थित (कृष्णा अलंकार ग्रुप टाउनशिप) के उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पश्चिमी हिस्से को सम्मिलित करते हुए सैनी मार्ग तिराहे तक, सैनी मार्ग तिराहे से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए दक्षिणी हिस्से को सम्मिलित करते हुए बालाजी मंदिर तक, बालाजी मंदिर से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए पूर्वी हिस्से को सम्मिलित करते हुए बजरंग द्वार | 22818 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|----|---|-------|
| | | | चौराहे तक, बजरंग द्वार चौराहे से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए पूर्वी हिस्से को सम्मिलित करते हुए कालवाड रोड पर रावण गेट तक। रावण गेट के कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए कालवाड रोड पावर हाउस के पश्चिम की तरफ कालवाड रोड पर सालासर मिठान भण्डार गोविन्दपुरा राजस्व ग्राम सीमा पीथावास गोकुल पुरा गांव से कनक पुरा रेलवे फाटक को पूर्वी भाग व उत्तरी भाग को सम्मिलित करते हुए कनक पुरा रेलवे फाटक तक कनक पुरा रेलवे फाटक से रेलवे ट्रैक के सहारे-सहारे पूर्व की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को सम्मिलित करते हुए दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस पर रेलवे अण्डरपास तक। | |
| 26 | झोटवाडा विधानसभा क्षेत्र | 26 | सिरसी रोड एवं दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस अण्डरपास से पश्चिम दिशा में बेगस की ओर जाने वाली सिरसी रोड के पश्चिम तरफ चलते हुए के उत्तरी भाग को सम्मिलित करते हुए राजस्व ग्राम बिन्दायका की नगर निगम सीमा तक, नगर निगम सीमा से उत्तर की ओर चलते हुए पूर्वी भाग को शामिल करते हुए उत्तर दिशा दायीं ओर रोड से जयपुर अजमेर रेलवे लाईन की ओर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर नगर निगम सीमा तक रेलवे ट्रैक आगे सिवार ग्राम की राजस्व सीमा को सम्मिलित करते हुए विजयपुरा, किशोरपुरा, नानूसर व जयपुरियावास गांव की राजस्व सीमा को सम्मिलित करते हुए पूर्व की ओर चलते हुए दक्षिणी पूर्वी हिस्से को लेते हुए मार्बल मण्डी चौराहे गोकुलपुरा रोड तक मार्बल मण्डी चौराहे गोकुलपुरा रोड से दक्षिण की तरफ चलते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए कनकपुरा रेलवे फाटक तक कनकपुरा रेलवे फाटक से पूर्व की ओर रेलवे ट्रैक के सहारे-सहारे खिरणी फाटक अण्डर पास तक खिरणी अण्डर पास से दक्षिण की ओर चलते पश्चिमी भाग को सम्मिलित करते हुए सिरसी रोड पर दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस अण्डरपास के कोने तक। | 21985 |
| 27 | झोटवाडा विधानसभा क्षेत्र | 27 | दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस गांधी पथ अण्डरपास से पश्चिम दिशा की ओर गांधी पथ लालरपुरा रोड पर उत्तरी भाग को शामिल करते हुए ग्राम राजस्व सिरसी एवम् बिन्दायका राजस्व ग्रम को शामिल करते हुए नगर निगम सीमा तक, नगर निगम सीमा से नगर निगम सीमा के सहारे-सहारे उत्तर की ओर चलते हुए पूर्वी भाग को शामिल करते हुए (बिन्दायका, सिरसी, कनकपुरा) राजस्व ग्राम को शामिल करते हुए, सिरसी बेगस रोड तक, सिरसी बेगस रोड से पूर्व की ओर चलते हुए, दक्षिण भाग को शामिल करते हुए, सिरसी रोड पर काली माता रोड के मोड़ तक, सिरसी रोड पर काली माता मोड़ से दक्षिण की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए, बजरी मण्डी रोड पर कालीमाता मन्दिर तक, कालीमाता बजरी मण्डी रोड पर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दक्षिण भाग को शामिल करते हुए, एच.टी. लाईन तक, एच.टी. लाईन से दक्षिण दिशा में चलते हुए पश्चिमी हिस्से को | 20396 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|----|--|-------|
| | | | सम्मिलित करते हुए, करणी पैलेस रोड तक। करणी पैलेस रोड पर पूर्व दिशा में चलते हुए दक्षिणी हिस्से को सम्मिलित करते हुए दिल्ली हाइवे एक्सप्रेस अण्डर पास तक, दिल्ली हाइवे एक्सप्रेस अण्डर पास से दक्षिण की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए गांधी पथ अण्डर पास तक। | |
| 28 | झोटवाडा विधानसभा क्षेत्र | 28 | सिरसी रोड दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के अण्डर पास से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए करणी पैलेस रोड तक करणी पैलेस अण्डर पास दिल्ली हाइवे एक्सप्रेस से पश्चिम दिशा की ओर करणी पैलेस रोड पर चलते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए एच.टी. लाइन तक, एच.टी. लाइन से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पूर्वी हिस्से सम्मिलित करते हुए बजरी मण्डी रोड तक, बजरी मण्डी रोड पर पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए, कालीमाता मोड़ तक, मोड़ से उत्तर दिशा चलते हुए पूर्वी भाग को शामिल करते हुए ग्राम मीनावाला की राजस्व सीमा को शामिल करते हुए मीनावाला के पश्चिमी तरफ सिरसी रोड तक सिरसी रोड से पूर्व की ओर चलते हुए दक्षिण भाग को शामिल करते हुए दिल्ली हाइवे एक्सप्रेस अण्डर पास तक। | 28182 |
| 29 | झोटवाडा विधानसभा क्षेत्र | 29 | धावास रोड अण्डर पास (दिल्ली अजमेर हाइवे) से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए उत्तरी हिस्से को सम्मिलित करते हुए कुम्हार की हॉटल (धावास तिराहा)तक। कुम्हार हॉटल के तिराहे से दक्षिण दिशा में चलते हुए एच.टी लाइन (अवधपुरी तिराहा) तक। एच.टी लाइन (अवधपुरी तिराहा) से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए पूर्वी हिस्से को सम्मिलित करते हुए हिंगलाज नगर चौराहे तक। हिंगलाज नगर चौराहे से पश्चिम दिशा में चलते हुए उत्तरी हिस्से को सम्मिलित करते हुए एच.टी.लाइन (आम्रपाली नगर) तक। एच.टी लाइन के नीचे पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए उत्तरी हिस्से को सम्मिलित करते हुए नगर निगम की सीमा तक (गांधी बस्ती नाड्या)। नगर निगम सीमा से उत्तर दिशा चलते हुए पूर्वी हिस्से को सम्मिलित करते हुए गांधी पथ तक। गांधी पथ पर पूर्व दिशा में चलते हुए दक्षिणी हिस्से को सम्मिलित करते हुए गांधी पथ अण्डर पास तक। गांधी पथ अण्डर पास से दक्षिण दिशा में चलते हुए पश्चिम हिस्से को सम्मिलित करते हुए धावास अण्डर पास तक। | 18406 |
| 30 | झोटवाडा विधानसभा क्षेत्र | 30 | धावास रोड अण्डर पास (दिल्ली अजमेर हाइवे) से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए दक्षिणी हिस्से को सम्मिलित करते हुए कुम्हार की हॉटल (धावास तिराहा)तक। कुम्हार हॉटल के तिराहे से दक्षिण दिशा में चलते हुए एच.टी लाइन (अवधपुरी तिराहा) तक। एच.टी लाइन (अवधपुरी तिराहा) से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए पश्चिमी हिस्से को सम्मिलित करते हुए हिंगलाज नगर चौराहे तक। | 17894 |

| | | | | |
|----|---------------------------|----|---|-------|
| | | | हिंगलाज नगर चौराहे से पश्चिम दिशा में चलते हुए दक्षिणी हिस्से को सम्मिलित करते हुए एच.टी.लाईन आप्रपाली नगर तक। एच.टी लाईन के नीचे पश्चिम की तरफ चलते हुए दक्षिणी हिस्से को सम्मिलित करते हुए नगर निगम की सीमा तक (गांधी बस्ती नाड़या)। नगर निगम सीमा से दक्षिण दिशा चलते हुए पूर्वी हिस्से को सम्मिलित करते हुए (मुकुन्दपुरा महराजपुरा) झोटवाड़ा विधानसभा की सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए अजमेर रोड तक (केशवपुरा को छोड़ते हुए)। अजमेर रोड पर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए उत्तरी हिस्से को सम्मिलित करते हुए 200 फीट अजमेर रोड मुख्य चौराहे तक। 200 फीट मुख्य चौराहे से उत्तर दिशा में चलते हुए पश्चिमी हिस्से को सम्मिलित करते हुए धावास रोड अण्डर पास तक। | |
| 31 | झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र | 31 | कमला देवी बुधिया स्कूल 200 फीट मुख्य चौराहे से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए दक्षिण हिस्से को सम्मिलित करते हुए किंग्स रोड के तिराहे तक। किंग्स रोड तिराहे से दक्षिण दिशा में चलते हुए पश्चिमी हिस्से को शामिल करते हुए गोपालपुरा किंग्स रोड चौराहे तक। गोपालपुरा किंग्स रोड चौराहे से गोपालपुरा बायपास रोड पर पश्चिम दिशा में चलते हुए उत्तरी हिस्से को सम्मिलित करते हुए, अजमेर रोड कमला नेहरू पुलिया तक। अजमेर रोड कमला नेहरू पुलिया से अजमेर रोड पर पूर्व दिशा में चलते हुए दक्षिण हिस्से को सम्मिलित करते हुए अजमेर रोड कमला देवी बुधिया स्कूल 200 फीट मुख्य चौराहे तक। | 22607 |
| 32 | झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र | 32 | कमला देवी बुधिया स्कूल 200 फीट अजमेर रोड चौराहे से अजमेर रोड पर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए उत्तरी भाग का सम्मिलित करते हुए पुरानी चुंगी से आगे अजमेर रोड पर द्रव्यवत्ती नदी के पश्चिमी किनारे तक द्रव्यवत्ती नदी अजमेर रोड के किनारे से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पश्चिमी तरफ सैन्य क्षेत्र को शामिल करते हुए खातीपुरा रोड पर द्रव्यवत्ती नदी पुलिया से खातीपुरा रोड पर पश्चिम की तरफ चलते हुए दक्षिणी तरफ सैन्य क्षेत्र को शामिल करते हुए खातीपुरा रोड कल्याण जी की चौकी तक, खातीपुरा कल्याण जी की चौकी से दक्षिण दिशा में क्वीन्स रोड चलते हुए पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुए प्रिन्स रोड के कोने तक, प्रिन्स रोड से हॉटल पौराटिका सरोवर से आगे चौराहे से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए सारथी मार्ग 200 फीट बाइपास के अण्डर पास तक सारथी मार्ग 200 फीट अण्डर पास से दक्षिण दिशा में चलते हुए पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुए 200 फीट बाइपास व अजमेर रोड के चौराहे पर कमला देवी बुधिया स्कूल तक। | 23436 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|----|--|-------|
| 33 | झोटवाडा विधानसभा क्षेत्र | 33 | बाईपास रोड से सारथी मार्ग पूर्व की चलते हुए एच. टी. लाईनो प्रिंस रोड चलते हुए प्रिंस रोड तक, प्रिंस रोड से उत्तर की ओर चलते हुए गांधी पथ पर क्वीन्स रोड तक क्वीन्स रोड से उत्तर की तरफ चलते हुए पश्चिमी हिस्से को शामिल करते हुए विजय द्वारा गांधी पथ तक विजय द्वारा गांधी पथ से पश्चिम की ओर चलते हुए भरत अपार्टमेंट तक, भरत अपार्टमेंट से दक्षिण की ओर चलते हुए (पुर्वी हिस्से को सम्मिलित करते हुए) अक्षरधाम चौराहे से पश्चिम की ओर चलते हुए अजमेर बाईपास तक (दक्षिणी हिस्से को सम्मिलित करते हुए) बाईपास से दक्षिण की तरफ चलते हुए सारथी मार्ग तक। | 18018 |
| 34 | झोटवाडा विधानसभा क्षेत्र | 34 | अजमेर बाईपास अण्डर सिरसी रोड के पूर्वी तरफ चलते हुए गोतम मार्ग के मिलान से दक्षिण की तरफ चलते हुए वैशाली सर्किल से सीधे दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए आम्रपाली सर्किल तक (पश्चिमी हिस्सा सम्मिलित करते हुए) आम्रपाली सर्किल से पश्चिमी दिशा की तरफ चलते हुए नर्सरी सर्किल तक, नर्सरी सर्किल से दक्षिण तरफ चलते हुए गांधी पथ होते हुए ग्लोबल हॉस्पिटल से दक्षिणी दिशा में चित्रकुट मार्ग होते हुए अक्षरधाम मन्दिर चौराहे तक चौराहे से पश्चिम की तरफ चलते हुए एक्सप्रेस के बाईपास रोड तक दिल्ली हाईये से उत्तर की ओर चलते हुए पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुए सिरसी रोड तक। | 17414 |
| 35 | झोटवाडा विधानसभा क्षेत्र | 35 | विजय द्वारा गांधी पथ से पश्चिमी दिशा चलते हुए, ग्लोबल हॉट हॉस्पिटल से उत्तर दिशा चलते हुए नर्सरी सर्किल तक नर्सरी सर्किल से पूर्व दिशा चलते हुए आम्रपाली सर्किल तक, आम्रपाली सर्किल से उत्तर दिशा चलते हुए वैशाली सर्किल होते हुए सिरसी रोड तक, सिरसी रोड से (गोतम मार्ग) से पूर्व चलते हुए खातीपुरा तिराहे से खातीपुरा रोड होते हुए कल्याण जी चौकी (तिराहे) से कल्याण जी की चौकी खातीपुरा रोड तिराहे से क्वीन्स रोड पर दक्षिण चलते हुए पश्चिमी भाग को सम्मिलित करते हुए विजय द्वार तक। | 18805 |
| 36 | सिविल लाईन विधान सभा क्षेत्र | 36 | खातीपुरा रोड हजरत पंजाब शाह बाबा की दरगाह के सामने तंवर कॉलोनी में खातीपुरा रोड हनुमान मंदिर व होटल ग्रेट इण्डिया के बीच से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए कब्रिस्तान नाला के पश्चिमी भाग को लेते हुए व नाले के पश्चिमी घुमाव से पश्चिमी दिशा की ओर चलते हुए द्रव्यवती नदी के उत्तरी भाग में द्रव्यवती नदी के सहारे पूर्वी भाग को लेते हुए, खातीपुरा पुलिया तक खातीपुरा रोड द्रव्यवती नदी खातीपुरा तिराहे तक उत्तरी भाग से खातीपुरा तिराहे से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पूर्वी भाग को शामिल करते हुए अजमेर रेलवे लाईन तक अजमेर रेलवे लाईन खातीपुरा रोड से पूर्व दिशा की ओर रेलवे लाईन के सहारे-सहारे द्रव्यवती नदी तक का दक्षिणी क्षेत्र अजमेर रेलवे लाईन द्रव्यवती नदी के | 19278 |

| | | | | |
|----|------------------------------|----|--|-------|
| | | | पूर्वी किनारे को लेते हुए, हसनपुरा के पश्चिम दिशा की ओर एन.बी.सी. की बाउण्ड्रीवाल के सहारे—सहारे सम्पूर्ण पश्चिमी क्षेत्र को लेते हुए खातीपुरा रोड, एन.बी.सी. तक एन.बी.सी. के दक्षिण पश्चिमी कोने खातीपुरा रोड से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए, हजरत पंजाब शह बाबा की दरगाह के सामने तंवर कॉलोनी में हनुमान मंदिर व होटल ग्रेट इण्डिया के बीच की गली तक। | |
| 37 | सिविल लाईन विधान सभा क्षेत्र | 37 | कावाटिया सर्किल से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को लेते हुए जलदाय विभाग के दक्षिणी पूर्वी कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए रईस फर्नीचर की दुकान म.न. 2घ2 सैक्टर 2 तक रईस फर्नीचर की दुकान से पश्चिम की ओर दक्षिण भाग को लेते हुए मकान न. 978 से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए अमानीशह नाला दरगाह तक अमानीशह नाला दरगाह से दक्षिण की ओर विधाधर नगर रोड पर चलते हुए कावाटिया सर्किल तक का सम्पूर्ण पूर्व भाग। | 25965 |
| 38 | सिविल लाईन विधान सभा क्षेत्र | 38 | शास्त्री नगर रोड पर पैराडाईज 9 रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी के कोने से उत्तर—पूर्व की ओर चलते हुए, पानी की टंकी से पश्चिमी भाग को लेते हुए राजश्री पब्लिक स्कूल के कोने से उत्तर की ओर प्लॉट ए 36 के कोने से आगे उत्तर की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए पोस्ट ऑफिस को शामिल करते हुए व बाजोरिया स्कूल के कोने पर प्याऊ तक, प्याऊ से पूर्व की ओर चलते हुए गिरार्ज एन्टरप्राईजेज होते हुए उत्तरी भाग को लेते हुए रवि डेयरी बूथ न. 2301 के कोने से उत्तर की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग लेते हुए राधेश्याम सिखवाल एडवोकेट के मकान के कोने से पश्चिम की ओर चलते हुए दक्षिणी भाग को लेते हुए पूरणमल शर्मा प्लॉट न. 105 के कोने तक मकान न. 105 के कोने से उत्तर की ओर चलते पश्चिमी भाग को लेते हुए खण्डेलवाल कॉलेज के टी प्वाइंट से पश्चिमी दिशा की ओर चलते हुए दक्षिणी भाग को लेते हुए खण्डेलवाल कॉलेज के दक्षिण—पश्चिमी कोने से उत्तर की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए कावाटिया सर्किल तक का दक्षिणी भाग लेते हुए। कावाटिया सर्किल से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए द्रव्यवती नदी तक द्रव्यवती नदी के सहारे—सहारे पश्चिमी की ओर चलते हुए द्रव्यवती नदी कॉजवे तक का दक्षिणी भाग व द्रव्यवती नदी कॉजवे से दक्षिण की ओर चलते हुए आर.पी.ए. रोड तिराहे प्लॉट संख्या सी 80 से पूर्व की ओर चलते हुए विधाधर नगर जोन कार्यस्थल का उत्तरी भाग लेते हुए जोन कार्यालय से दक्षिण की ओर चलते हुए पैराडाईज व रेजेन्डेट वेलफेयर सोसायटी तक। | 18443 |
| 39 | सिविल लाईन | 39 | द्रव्यवती नदी के कॉजवे से पश्चिम की ओर द्रव्यवती | 20671 |

| | | | | |
|----|------------------------------|----|---|-------|
| | विधान सभा क्षेत्र | | नदी के सहारे दक्षिणी भाग की लेते हुए झोटवाडा रोड द्रव्यवती नदी की पुलिया से पूर्व की ओर झोटवाडा रोड पर चलते हुए उत्तरी भाग को लेते हुए पानी पेच तिराहा होते हुए झोटवाडा रोड के उत्तरी भाग को लेते हुए शास्त्री नगर रोड के कोने तक। पीतल फैक्ट्री कोने पर मनमोहन शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, नीरज शर्मा के मकान के कोने से शास्त्री नगर रोड पर उत्तर दिशा को चलते हुए पश्चिमी हिस्से को लेते हुए नागर हाउस मकान न. ए 33 शास्त्री नगर के कोने से उत्तर की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए साईन्स पार्क होते हुए विधाधर नगर जोन कार्यालय के कोने से पश्चिमी की ओर चलते हुए दक्षिणी भाग को लेते हुए आर.पी.ए. रोड के तिराहे तक, आर.पी.ए. रोड प्लाट संख्या सी 80 से उत्तर दिशा की ओर आर.पी.ए. रोड पर द्रव्यवती नदी काँजवे तक का सम्पूर्ण पश्चिमी भाग तक। | |
| 40 | सिविल लाईन विधान सभा क्षेत्र | 40 | पानी पेच तिराहे से दक्षिण की ओर चलते हुए चलते हुए स्टेशन रोड पर पूर्वी भाग को लेते हुए, रेल्वे स्टेशन जंक्शन के सामने मुख्य द्वार पर परशुराम सर्किल के उत्तरी भाग को लेते हुए पूर्व की ओर चलते हुए, सदर थाना से उत्तर की ओर चलते हुए आर.टी.डी.सी. होटल स्वागतम को शामिल करते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए अजीत कुरैशी के मकान बड़ोदिया बस्ती से पूर्व की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को लेते हुए मकान न. 275 के कोने तक, मकान न. 275 बड़ोदिया बस्ती के कोने से उत्तर की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग लेते हुए जय सीयाराम पान भण्डार की दुकान के कोने तक, जय सीयाराम पान भण्डार से कबीर मार्ग टी प्लाईन्ट से पूर्व की ओर चलते हुए कलेक्ट्रेट सर्किल होते हुए शिवा मार्ग पर पूर्व की ओर झोटवाडा रोड टी प्लाईन्ट, पावर हाउस, दूध मिष्ठान भण्डार के कोने तक, दूध मिष्ठान भण्डार से पश्चिमी की ओर चलते हुए झोटवाडा रोड पानी पेच तिराहे तक को दक्षिणी भाग। | 20590 |
| 41 | सिविल लाईन विधान सभा क्षेत्र | 41 | रेल्वे स्टेशन जंक्शन के मुख्य द्वार के सामने परशुराम सर्किल से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए, सदर थाने तक का दक्षिणी भाग को लेते हुए सदर थाने से उत्तर की ओर चलते हुए पंचायत धर्मशाला के पीछे की रोड बड़ोदिया बस्ती होते हुए, पूर्वी भाग को लेते हुए, गणपति मिष्ठान भण्डार कबीर मार्ग के कोने तक, गणपति मिष्ठान भण्डार से पूर्व की ओर चलते हुए कलेक्ट्रेट सर्किल होते हुए शिवा मार्ग होते हुए दक्षिणी भाग को लेते हुए झोटवाडा रोड तिराहे तक दूध मिष्ठान भण्डार के सामने कोने से पूर्वी दिशा की ओर झोटवाडा रोड चलते हुए चांदपोल दरवाजे तक पूर्वी दक्षिणी भाग लेते हुए, चांदपोल दरवाजे से पुलिस लाईन व सिंधी कैम्प होते हुए स्टेशन रोड पर खासाकोठी चौराहे तक का उत्तर पश्चिमी भाग व खासाकोठी चौराहे से दक्षिण व पूर्व | 18432 |

| | | | | |
|----|------------------------------|----|---|-------|
| | | | <p>की ओर चलते हुए गोरमेन्ट हॉस्टल चौराहे तक का दक्षिणी भाग व गोरमेन्ट हॉस्टल चौराहे से अजमेर रोड पश्चिम की ओर चलते हुए अजमेर पुलिया को पार कर जैकब रोड की रेड लाईट तक का उत्तरी भाग, अजमेर रोड जैकब रोड पर उत्तर की ओर चलते हुए पूर्वी भाग को लेते हुए जलभवन पण्डित जी के चौराहे तक, पण्डित जी के चौराहे से पूर्व की ओर चलते हुए हसनपुरा पुलिया होते हुए होटल राजपूताना के दक्षिण पश्चिमी कोने तक का दक्षिणी भाग, होटल राजपूताना के दक्षिण पश्चिमी कोने से रेल्वे स्टेशन, मैट्रो स्टेशन के गेट न. 2 से होते हुए रेल्वे स्टेशन जंक्शन के मुख्य द्वार पर परशुराम सर्किल तक का पूर्वी भाग।</p> | |
| 42 | सिविल लाईन विधान सभा क्षेत्र | 42 | <p>रेल्वे जंक्शन गेट न. 2, हसनपुरा पुलिया से पश्चिम की ओर चलते हुए पण्डित जी का चौराहा होते हुए, उत्तर भाग को सम्मिलित करते हुए एन.बी.सी. रोड खातीपुरा रोड में एन.बी.सी. की पश्चिमी दीवार के सहारे—सहारे उत्तर की ओर चलते हुए पूर्वी भाग को लेते हुए, द्रव्यवती नदी के पूर्वी किनारे को लेते हुए अजमेर रेल्वे लाईन तक का पूर्वी भाग, द्रव्यवती नदी अजमेर रेल्वे लाईन के सहारे—सहारे पूर्व—दक्षिण की तरफ चलते हुए रेल्वे जंक्शन होते हुए हसनपुरा पुलिया तक दक्षिण—पश्चिम भाग।</p> | 21482 |
| 43 | सिविल लाईन विधान सभा क्षेत्र | 43 | <p>पांच बत्ती, एम.आई. रोड से दक्षिण की ओर भगवान दास रोड होते हुए स्टेच्यू सर्किल को पार कर अम्बेडकर सर्किल तक का पश्चिमी भाग, अम्बेडकर सर्किल से भवानी सिंह रोड होते हुए 22 गोदाम सर्किल व सहाकर सर्किल से पश्चिमी की तरफ चलते हुए हवा सड़क पर राम नगर चौराहे तक का उत्तरी भाग, राम नगर चौराहे से उत्तर—पूर्व की ओर राजभवन की ओर चलते हुए राजभवन सर्किल तक के दक्षिणी भाग तक, राजभवन सर्किल से उत्तर की ओर चलते हुए अजमेर रोड तक का पूर्वी भाग, अजमेर रोड सिविल लाईन्स, मैट्रो स्टेशन से पूर्व की ओर अजमेर रोड पर चलते हुए अजमेर पुलिया पार करते हुए गोरमेन्ट हॉस्टल तिराहे से होते हुए, एम.आई. रोड पांच बत्ती तक का दक्षिणी भाग।</p> | 20527 |
| 44 | सिविल लाईन विधान सभा क्षेत्र | 44 | <p>खातीपुरा रोड एन.बी.सी. के सामने, क्लासिक ट्रेलर्स की दुकान के कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पूर्वी हिस्से को लेते हुए बगगा किराना के पूर्व की ओर गली को लेते हुए दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए अजमेर रोड तक अजमेर रोड से दक्षिणी—पश्चिमी दिशा की ओर चलते हुए सोडाला व हवासड़क चौराहे तक सोडाला व हवासड़क चौराहे से पूर्व की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को सम्मिलित करते हुए रामनगर मोड तक, रामनगर मोड से उत्तर—पूर्व दिशा की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को सम्मिलित करते हुए राजभवन सर्किल तक, राजभवन सर्किल से उत्तर की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को सम्मिलित करते हुए अजमेर रोड</p> | 21844 |

| | | | | |
|----|------------------------------|----|---|-------|
| | | | तिराहे तक। अजमेर रोड तिराहे से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को लेते हुए, जयमहल होटल के कोने से उत्तर की ओर जैकब रोड पर चलते हुए पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए पण्डित जी के छौराहे से एन.बी.सी. रोड पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए दक्षिण भाग को शामिल करते हुए एन.बी.सी. के सामने क्लासिक टेलर्स की दुकाने के कोने तक। | |
| 45 | सिविल लाईन विधान सभा क्षेत्र | 45 | एन.बी.सी. के सामने खातीपुरा रोड पर दुकान फौजी ढाबा से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए संत रामदास बाबा मार्ग से पुलिस चौकी, हसनुपरा थाना सदर को लेते हुए, मॉर्डन इंग्रीज लेण्ड स्कूल को लेते हुए, पी.एन.टी. कॉलोनी, शान्ती नगर को शामिल करते हुए। बंगा किराना स्टोर के बगल वाली गली होते हुए पश्चिमी भाग से एस.डी. क्वार्टर को शामिल करते हुए मुख्य अजमेर रोड तक अजमेर रोड से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को लेते हुए। ई.एस.आई. हॉस्पिटल से दक्षिणी-पश्चिमी दिशा चलते हुए अजमेर रोड पर न्यू सांगानेर रोड व अजमेर रोड की रेड लाईट पर बाबू किराना स्टोर तक बाबू किराना स्टोर से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुए अशोक किराना स्टोर गोविन्दपुरी के कोने तक अशोका किराना स्टोर गोविन्दपुरी से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए कुमावत बस्ती को छोड़ते हुए हटवाडा रोड पर विष्णु कॉलोनी के कोने तक। विष्णु कॉलोनी हटवाडा रोड से उत्तर की ओर चलते हुए पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुए हटवाडा व खातीपुरा रोड पी.एच.ई.डी. कार्यालय तक, पी.एच.ई.डी. खातीपुरा रोड से पूर्व की ओर चलते हुए और दक्षिणी भाग को सम्मिलित करते हुए एन.बी.सी. के सामने खातीपुरा रोड पर फौजी ढाबा तक। | 16826 |
| 46 | सिविल लाईन विधान सभा क्षेत्र | 46 | विष्णु कॉलोनी तिराहे हटवाडा रोड पर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए खातीपुरा सब्जी मण्डी तिराहे तक, सब्जी तिराहे से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए दक्षिणी भाग को सम्मिलित करते हुए खातीपुरा रोड पर हजरत पंजाब शाह बाबा की दरगाह के सामने खातीपुरा रोड पर होटल ग्रेट इण्डिया व हनुमान मंदिर के बीच रोड तक। ग्रेट इण्डिया व हनुमान मंदिर के बीच रोड खातीपुरा से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुए कब्रिस्तान नाला के दक्षिणी भाग को लेते हुए नाले के पश्चिम घुमाव से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए द्रव्यवती नदी के सहारे-सहारे दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए, द्रव्यवती नदी पर व गोविन्दपुरी तिराहे से पूर्व की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए अशोका किराना स्टोर गोविन्दपुरी से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए कुमावत बस्ती को छोड़ते हुए हटवाडा रोड पर विष्णु कॉलोनी के कोने तक। | 21368 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|----|---|-------|
| 47 | सिविल लाईन विधान सभा क्षेत्र | 47 | बाबू किराना स्टोर अजमेर रोड के पास से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए अशोक किराना स्टोर गोविन्दपुरी के सामने प्लॉट ए 61, गोविन्दपुरी के कोने से पश्चिम की ओर चलते हुए दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए। द्रव्यवती नदी के सहारे मैन अजमेर रोड तक का दक्षिणी व पूर्वी भाग को शामिल करते हुए द्रव्यवती नदी अजमेर रोड से पूर्व दिशा की ओर अजमेर रोड पर चलते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए। ए. आई.आर. अपार्टमेन्ट, अजमेर रोड की रेड लाईट तक रेड लाईट से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पूर्वी भाग को शामिल करते हुए, मनू हॉस्पिटल को शामिल करते हुए श्याम नगर सर्किल से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए उत्तर भाग को लेते हुए। न्यू सांगानेर रोड तक न्यू सांगानेर पर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग में अशोकपुरा को शामिल करते हुए, न्यू सांगानेर रोड अजमेर रोड रेड लाईट तक का भाग। | 21214 |
| 48 | सिविल लाईन विधान सभा क्षेत्र | 48 | न्यू सांगानेर रोड मैट्रो स्टेशन पिल्लर न. एस.एम.एन. आर.ई. के पास चटपटा कार्नर वाली गली में पूर्व दिशा की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को लेते हुए हाईटेन्शन लाईन के नीचे प्लॉट संख्या ई-159 डी, इन्द्र सिंह चौहान के मकान से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पूर्वी भाग को लेते हुए कटारिया किराना स्टोर तक कटारिया किराना स्टोर से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को लेते हुए श्याम वाटिका तक श्याम वाटिका से पूर्व दिशा की ओर घुमते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए, उत्तरी भाग को शामिल करते हुए 80 फीट रोड तक 80 फीट रोड से दक्षिण की ओर चलते हुए पूर्वी भाग को शामिल करते हुए स्वेजफार्म रोड तक कटारिया किराना स्टोर से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मंगल मंच का उत्तरी भाग मंगल मंच से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए नन्दपुरी हवा सड़क तिराहे तक का पश्चिमी भाग। हवासड़क नन्दपुरी तिराहे से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सोडाला सर्किल तक सोडाला चौराहे से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए न्यू सांगानेर रोड पर रेड लाईट तक। न्यू सांगानेर रोड चौराहे रेड लाईट से दक्षिण की तरफ न्यू सांगानेर रोड पर श्याम नगर मैट्रो स्टेशन पिल्लर न. एस.एम.एन.आर.ई. का पूर्वी भाग तक। | 21234 |
| 49 | सिविल लाईन विधान सभा क्षेत्र | 49 | न्यू सांगानेर रोड स्थित श्याम नगर मैट्रो स्टेशन पिल्लर न. एस.एम.एन.आर.ई. के पास चटपटा कार्नर के पास वाली गली में पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दक्षिणी भाग को लेते हुए। हाईटेन्शन लाईन के नीचे प्लॉट ई 159 डी इन्द्र सिंह चौहान के मकान से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए कटारिया किराना स्टोर से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दक्षिणी भाग को लेते हुए। प्लॉट संख्या ई 92 को शामिल करते हुए शमशान घाट को शामिल करते हुए, प्लॉट संख्या 39ए के सहारे होते | 15788 |

| | | | | |
|----|------------------------------|----|--|-------|
| | | | हुए प्लॉट संख्या 42सी, श्याम वाटिका से पूर्व दिशा की ओर घुमते हुए, दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए, 80 फीट रोड से दक्षिण दिशा की ओर चलते पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए, स्वेजफार्म रोड पर हनुमान जी के मंदिर के कोने से पश्चिमी दिशा की ओर चलते हुए उत्तरी दिशा को शामिल करते हुए महिमा सर्किल से उत्तर की ओर चलते पूर्वी भाग को शामिल करते हुए, प्लॉट संख्या ए 1, सुन्दर सिंह भण्डारी नगर से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए, हेम मार्ग पर उत्तरी हिस्से को लेते हुए, राममंदिर, मैट्रो पिल्लर 98, न्यू सांगानेर रोड तक न्यू सांगानेर रोड मैट्रो पिल्लर न. 98 से उत्तरी दिशा तरफ चलते हुए पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए मैट्रो पिल्लर न. 109 से पश्चिम की ओर जनपथ पर उत्तरी भाग को लेते हुए द्रव्यवती नदी तक, द्रव्यवती नदी के दक्षिण की तरफ चलते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए गोपालपुरा बाईपास व किंग्स रोड तिराहे तक। गोपालपुरा बाईपास व किंग्स रोड तिराहे से किंग्स रोड पर उत्तर दिशा की आरे चलते हुए पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुए, किंग्स रोड व अजमेर रोड, रेड लाईट से पूर्व की ओर चलते हुए अजमेर रोड पर द्रव्यवती नदी को पार करते हुए, ए.आई.आर. अपार्टमेन्ट के सामने, अजमेर रोड पर रेड लाईट से दक्षिणी दिशा की ओर चलते हुए श्याम नगर सर्किल होते हुए पूर्वी दिशा की ओर हाईटेन्शन लाईन के नीचे न्यू सांगानेर रोड मैट्रो स्टेशन शमाम नगर के पिल्लर एस.एम.एन.आर.ई. तक का दक्षिणी भाग। | |
| 50 | सिविल लाईन विधान सभा क्षेत्र | 50 | न्यू सांगानेर रोड पर मैट्रो पिलर नं. 68–69 के मध्य से कटेवा नगर 60 फीट रोड पर पश्चिम की ओर उत्तरी भाग को लेते हुए गली नं. 3 तक, गली नं. 3 पर उत्तरी ओर चलते हुए पूर्वी भाग को लेते हुए देवी नगर प्लॉट नं. 167 तक, प्लॉट नं. 167 देवी नगर से पश्चिम की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को लेते हुए प्लॉट नं. 155 देवी नगर तक, प्लॉट नं. 155 देवी नगर से उत्तर की तरफ चलते हुए पूर्वी भाग को लेते हुए देवी नगर 60 फीट रोड तक, देवी नगर 60 फीट रोड से पश्चिम की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को सम्मिलित करते हुए बालाजी मैचिंग सेन्टर से उत्तर की ओर चलते हुए, पूर्वी भाग को लेते हुए सुरेन्द्रपाल कॉलोनी तक सुरेन्द्रपाल कॉलोनी से लक्षण पथ के टी–पोईन्ट तक का उत्तरी भाग, लक्षण पथ के टी–पोईन्ट से दक्षिणी पश्चिमी दिशा चलते हुए कमल विहार को लेते हुए उत्तरी भाग अमानीशाह नाले तक, अमानीशाह नाले से उत्तर की ओर चलते हुए पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुए जनपथ तक, जनपथ से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दक्षिणी भाग को लेते हुए लजीज रेस्टोरेन्ट न्यू सांगानेर रोड तिराहे तक, लजीज रेस्टोरेन्ट न्यू | 19908 |

| | | | | |
|----|------------------------------|----|--|-------|
| | | | सांगानेर रोड तिराहे से दक्षिण की ओर चलते हुए पश्चिम भाग को शामिल करते हुए न्यू सांगानेर रोड पर हेम मार्ग के कोने तक, हेम मार्ग न्यू सांगानेर रोड तिराहे से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए एवं ऐ-1, सुन्दर सिंह भण्डारी नगर से महिमा सर्किल तक, महिमा सर्किल से दक्षिण की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को सम्मिलित करते हुए नगर निगम के मॉल गोदाम को लेते हुए करतारपुरा नाले के सहारे-सहारे स्वेजफार्म में सुल्तान नगर तक, करतारपुरा नाले के तिराहे से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए उत्तरी भाग को शामिल करते हुए राजीव नगर व सुल्तान नगर के बीच से न्यू सांगानेर रोड पर मेट्रो पिलर नं. 68-69 के मध्य तक। | |
| 51 | सिविल लाईन विधान सभा क्षेत्र | 51 | न्यू सांगानेर रोड पर मेट्रो पिलर नं. 68-69 के मध्य से कटेवा नगर 60 फीट रोड पर पश्चिम की ओर चलते हुए दक्षिणी भाग को लेते हुए, गली नं. 3 तक, गली नं. 3 से उत्तर की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए देवी नगर प्लॉट नं. 167 तक, प्लॉट नं. 167 देवी नगर से पश्चिम की ओर चलते हुए दक्षिणी भाग को लेते हुए प्लॉट नं. 155 देवी नगर तक, प्लॉट नं. 155 देवी नगर से उत्तर की तरफ चलते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए देवी नगर 60 फीट रोड तक, देवी नगर 60 फीट रोड से पश्चिम की ओर चलते हुए दक्षिणी भाग को सम्मिलित करते हुए शिव मंदिर सर्किल देवी नगर से उत्तर की ओर चलते हुए पश्चिमी भाग को लेते हुए सुरेन्द्रपाल कॉलोनी तक, सुरेन्द्रपाल कॉलोनी से पश्चिम की ओर चलते हुए देवी नगर विस्तार को लेते हुए दक्षिणी भाग को सम्मिलित करते हुए अयप्पा मंदिर को लेते हुए अमानीशाह नाले तक, अमानीशाह नाले के सहारे दक्षिण की ओर चलते हुए पूर्वी भाग को शामिल करते हुए गोपालपुरा बाईपास तक गोपालपुरा बाईपास पर पश्चिम की ओर गंगा जमना पैट्रोल पम्प, गोपालपुरा बाईपास से दक्षिण दिशा के ओर चलते हुए पूर्वी भाग को लेते हुए शिप्रा पथ पर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर उत्तरी भाग को लेते हुए आई. आई. एस० स्कूल के पास रेड लाईट से उत्तर दिशा की ओर रिंडि-सिंडि पुलिया की ओर चलते हुए द्रव्यवती नदी की पुलिया के दक्षिणी किनारे से उत्तर पश्चिम की ओर द्रव्यवती नदी के सहारे-सहारे चलते हुए दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए द्रव्यवती नदी करतारपुरा नाले के कोने से करतारपुरा नाले के सहारे-सहारे उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पश्चिम भाग को लेते हुए गोपालपुरा बाईपास को पार करते हुए करतारपुरा नाले के सहारे सहारे सुल्तान नगर करतारपुरा नाले तक, सुल्तान नगर करतारपुरा नाले से पश्चिम की ओर चलते हुए दक्षिणी भाग को सम्मिलित करते हुए न्यू सांगानेर रोड पर मेट्रो पिलर नं. 68-69 के मध्य तक। | 22412 |

| | | | | |
|----|----------------------------|----|---|-------|
| 52 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 52 | <p>महापुरा रोड अजमेर रोड जंक्शन से शुरू होकर उत्तर दिशा की तरफ चलते हुये हसमपुरा गांव, कुम्हारो की ढाणी को शामिल करते हुये विधानसभा की बाउन्ड्री के साथ—साथ पूर्व दिशा में चलते हुये मीणो की ढाणी, पण्डो की ढाणी कुच्चावाली ढाणी होते हुये दाहिने भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से दक्षिण दिशा में चाणक्य कॉलेज को शामिल करते हुये चाणक्य कॉलेज, केशोपुरा गांव एंव केशव नगर को शामिल करते हुए अजमेर रोड तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा विनायक पुलिया के पास के दक्षिण दिशा में मुख्य गोपालपुरा रोड पर चलकर 'ब्लॉक नारायण विहार को शामिल करते हुये तथा यहाँ से दक्षिण दिशा में चलकर गणतपुरा जे डी ए कॉलोनी, गणपतपुरा रोड कॉस करते हुये आगुनाबाड़ लेते हुये, जाट कॉलोनी एंव हैंगिंग गार्डन तथा चिमनपुरा को शामिल करते हुये महापुरा रोड तक तथा यहाँ से महापुरा रोड पर उत्तर दिशा में चलकर अजमेर रोड तक का दाहिनी ओर का समस्त भाग।</p> | 21116 |
| 53 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 53 | <p>अजमेर रोड केशव नगर को छोड़कर अजमेर रोड से उत्तर दिशा में चलकर वेलेन्टीना कॉलोनी व केशोपुरा शमशान को शामिल कर जैन विहार होते हुये चौरडिया सिटी तक तथा विधानसभा सीमा के सहारे—सहारे चलते हुये जैन विहार, चौरडिया सिटी, एकता नगर, एस ब्लॉक को शामिल करते हुये पौददार स्कूल तक तथा यहाँ से कनक विहार को शामिल करते हुये विधानसभा बाउन्ड्री के साथ—साथ अजमेर रोड तक एवं कमला नेहरू नगर पुलिया को क्रॉस करते हुये गोपालपुरा रोड पर विधानसभा की बाउन्ड्री के सहारे सहारे चलते हुये किसान धर्म कांटे तक। किसान धर्मकांटा न्यू सांगानेर रोड गोपालपुरा रोड कोने से दक्षिण दिशा में न्यू सांगानेर रोड चलकर गोल्यावास रोड तक तथा गोल्यावास रोड पर पश्चिम दिशा में चलकर रामपुरा को छोड़ते हुये विधानसभा बाउन्ड्री के सहारे सहारे गणपतपुरा रोड से अजमेर रोड तक का समस्त क्षेत्र।</p> | 22324 |
| 54 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 54 | <p>शिप्रापथ किरण पथ जंक्शन से उत्तर दिशा की ओर शिप्रापथ पर चलते हुये गोपालपुरा बाईपास तक। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये किसान धर्म कांटा न्यू सांगानेर रोड तक। यहाँ से दक्षिण दिशा में न्यू सांगानेर रोड पर चलते हुये स्वर्णपथ तक। यहाँ से पूर्व दिशा में स्वर्णपथ पर चलते हुये मध्यम् मार्ग तक। यहाँ से दक्षिण दिशा में चलते हुये किरणपथ तक। यहाँ से पूर्व दिशा में चलते हुये शिप्रापथ किरण पथ जंक्शन तक का समस्त क्षेत्र।</p> | 20348 |
| 55 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 55 | <p>शिप्रापथ रजतपथ जंक्शन से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुये किरण पथ तिराहे तक। यहाँ से पश्चिम दिशा में चलते हुये मध्यम् मार्ग चौराहे तक। मध्यम् मार्ग चौराहे से उत्तर दिशा में चलते हुये स्वर्ण पथ</p> | 19080 |

| | | | | |
|----|----------------------------|----|---|-------|
| | | | तक। यहाँ से पश्चिम दिशा में चलते हुये न्यू सांगानेर रोड तक। यहाँ से दक्षिण दिशा में चलते हुये हीरापथ तक। यहाँ से पूर्व दिशा में हीरापथ पर चलते हुये मध्यम मार्ग तक। यहाँ से उत्तर दिशा में चलते हुये रजतपथ तक। यहाँ से पूर्व दिशा में चलते हुये शिप्रापथ रजतपथ जंक्शन तक का समस्त क्षेत्र। | |
| 56 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 56 | न्यू सांगानेर रोड रेलवे लाईन रिको पुलिया के नीचे से पश्चिम-दक्षिण की तरफ चलते हुए रामपुरा फाटक तक यहाँ से रामपुरा रोड पर पश्चिम दिशा में चलते हुये दाहिने हिस्सा को शामिल करते हुए केसर चौराहे तक। केसर चौराहे से उत्तर पूर्व की तरफ इस्कोन रोड निगम सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए दाहिनी हिस्सा को शामिल करते हुए धोलाई की ओर उत्तर-पश्चिम की तरफ निगम की सीमा के सहार-सहारे चलते हुए उत्तर-पूर्व हिस्सा रामपुरा गाँव को शामिल करते हुए गोल्यावास रोड तक। यहाँ से पूर्व की तरफ गोल्यावास रोड पर चलते हुये न्यू सांगानेर रोड तक। यहाँ दक्षिण दिशा में चलते हुये दाहिने भाग का शामिल करते हुए रेलवे लाईन रिको पुलिया के नीचे तक का समस्त क्षेत्र। | 24004 |
| 57 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 57 | शिप्रा पथ, वी.टी. रोड जंक्शन से उत्तर पश्चिम की ओर चलकर रजत पथ शिप्रा पथ जंक्शन तक। यहाँ से पश्चिम की ओर रजत पथ पर चलकर मध्यम मार्ग चौराहे तक। यहाँ से दक्षिण की तरफ पर चलकर हीरा पथ तक। यहाँ से पश्चिम की ओर चल कर न्यू सांगानेर तक। यहाँ से दक्षिण की ओर चलकर बायीं तरफ के हिस्से को लेते हुए वी.टी. रोड चौराहे तक। यहाँ से पूर्व की ओर वी.टी. रोड पर चलकर शिप्रापथ वी.टी. रोड जंक्शन तक का समस्त क्षेत्र। | 16940 |
| 58 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 58 | शिप्रापथ वी.टी. रोड तिराहा से द्रव्यवती नदी से दाहिने हिस्सा को शामिल करते हुए शिप्रापथ, विजयपथ, तिराहा तक। यहाँ से उत्तर दिशा में शिप्रापथ पर चलते हुए पटेल मार्ग तिराहे तक यहाँ से पटेल मार्ग पर चलते हुए मध्यम मार्ग को पार करते हुए न्यू सांगानेर रोड चौराहे तक बाये हिस्से को शामिल करते हुए यहाँ से न्यू सांगानेर रोड पर चलते हुए उत्तर दिशा में वी.टी. रोड चौराहे तक यहाँ से पूर्व दिशा की ओर वी.टी. चौराहे चलते हुए शिप्रा पथ तिराहे का दाये हिस्से का समस्त क्षेत्र। | 16894 |
| 59 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 59 | शिप्रापथ विजयपथ जंक्शन से उत्तर की ओर शिप्रापथ पर चलते हुये दाये हिस्से को छोड़ते हुये पटेल मार्ग तक। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये मध्यम मार्ग तक यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये न्यू सांगानेर रोड तक। यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर न्यू सांगानेर रोड पर चलते हुए वी.टू. बाईपास तक। यहाँ से पूर्व की ओर चलते हुए शिप्रा पथ तक यहाँ से शिप्रापथ द्रव्यवती के मध्य के क्षेत्र को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर शिप्रापथ-विजय पथ तिराहे तक का समस्त | 19295 |

| | | | क्षेत्र। | |
|----|----------------------------|----|---|-------|
| 60 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 60 | न्यू सांगानेर रोड़ रीको पुलियां ओवर ब्रिज के नीचे से उत्तरी ओर रेल्वे लाईन के सहारे— सहारे चलकर द्रव्यवती नदी तक। यहाँ से उत्तर की ओर द्रव्यवती नदी के सहारे— सहारे चलकर आकाशदीप स्कूल के बगल वाले रोड तक। यहाँ से पश्चिम दिशा में चलते हुए न्यू सांगानेर रोड तक यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ न्यू सांगानेर रोड पर चलते हुए रीको पुलिया ओवर ब्रिज के नीचे तक का समस्त क्षेत्र। | 20223 |
| 61 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 61 | रामपुरा रोड रेल्वे फाटक से पश्चिमी की ओर, रामपुरा रोड पर चलकर बायीं ओर के हिस्से को लेते हुए केसर चौराहे पर नगर निगम की सीमा तक यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चलकर नगर निगम की सीमा के साथ साथ चलते हुये बाये भाग को सम्मिलित करते हुये नेवटा कैनाल तक। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर चलकर मुहाना मोड तक। यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा की ओर डिग्गी मालपुरा रोड पर चलते हुये रेल्वे लाईन तक। यहाँ से रेल्वे लाईन के सहारे सहारे उत्तर दिशा की ओर चलते हुये रामपुरा फाटक तक का समस्त क्षेत्र। | 27030 |
| 62 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 62 | डिग्गी मालपुरा रोड मुहाना मोड चौराहे से पश्चिम दिशा की तरफ नेवटा कैनाल के सहारे—सहारे चलते हुये बाये हिस्से को शामिल करते हुये नगर निगम की सीमा तक। यहाँ से दक्षिण दिशा में निगम की सीमा के सहारे—सहारे चलते हुये दक्षिण—पूर्व की ओर मदरामपुरा, सायपुरा एवं श्योरामपुरा को शामिल करते हुये नगर निगम की सीमा के सहारे—सहारे मैन टॉक रोड पर सीतापुरा ओवर ब्रिज के नीचे तक। यहाँ से उत्तर—पश्चिम दिशा में रेल्वे लाईन के सहारे सहारे चलते हुये बाये हिस्से को शामिल करते हुये शिकारपुरा रेल्वे फाटक तक। यहाँ से रेल्वे लाईन के साथ साथ चलते हुये नसियौं रोड क्रोसिंग तक। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर बाये हिस्से में शिकारपुरा को शामिल करते हुये दाहिनी तरफ कुम्हरों का टीला को छोड़ते हुये डिग्गी मालपुरा रोड मुहाना मोड चौराहे तक का समस्त क्षेत्र। | 19998 |
| 63 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 63 | भोमिया जी के चबुतरे से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए किसान कालोनी को सम्मिलित करते डिग्गी मालपुरा रोड तक। यहाँ से उत्तर की ओर सांगानेर पावर हाऊस तक। यहाँ से सांगानेर रेल्वे स्टेशन रोड पर चलते हुए रेल्वे लाइन तक। रेल्वे लाइन से दक्षिण—पूर्व की ओर रेल्वे लाइन के साथ—साथ चलते हुए डिग्गी मालपुरा रोड तक, डिग्गी मालपुरा रोड से दक्षिण पश्चिम दिशा में डिग्गी रोड पर चलते हुए नेवटा नहर को पार कर बाए हिस्से को लेते हुए सुखदेवपुरी, सीतापुरा बागडो का बाग को शामिल करते हुए रेल्वे लाइन तक। यहाँ से उत्तर—पश्चिम दिशा की तरफ रेल्वे लाइन के सहारे—सहारे चलते हुए नहर को पार करते हुए रेल्वे फाटक तक। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर मुख्य | 17301 |

| | | | | |
|----|----------------------------|----|--|-------|
| | | | रोड पर चलते हुए बाये ओर की कालोनियों को शामिल करते हुए भौमिया जी के चबूतरे तक का समस्त क्षेत्र। | |
| 64 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 64 | भौमिया चबूतरे से दक्षिण कि तरफ चलते हुए बाए भाग की कालोनी को शामिल करते हुए सवाई माधोपुर रेल्वे लाइन तक। यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा में रेल्वे लाइन के साथ-साथ चलते हुए शिकारपुरा रेल्वे फाटक को पारकर रेल्वे लाइन के सहारे-सहारे राजस्व ग्राम कोकावास की सीमा को शामिल करते हुए ;पुराने वार्ड संख्या 37 की वाउण्डी तकद्वय हाँ से उत्तर पूर्व दिशा की ओर द्रव्यवती नदी तक। यहाँ से द्रव्यवती नदी के सहारे-सहारे चलकर सेक्टर 35 प्रतापनगर की पुलिया तक। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये शिकारपुरा रोड तक। यहाँ से उत्तर की ओर चलते हुये नेवटा नहर को पार करते हुये दाये तरफ गूलर के बंधा को छोड़ते हुये द्रव्यवती नदी के सहारे-सहारे सुभाष कॉलोनी, लीलाशाह कॉलोनी को लेते हुये सांगा सेतु तक। यहाँ दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये बायी ओर के हिस्से को लेते हुये खटीकों की ढाल तिराहे तक। यहाँ से पश्चिम की ओर चलते हुये तेजाजी के बाडे को लेते हुये भौमियांजी के चबूतरे तक का समस्त क्षेत्र। | 19864 |
| 65 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 65 | टोंक रोड हल्दीघाटी चौराहे से हज हाउस रोड पर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बाये हिस्से को शामिल करते हुए द्रव्यवती नदी तक। यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ द्रव्यवती नदी के सहारे चलते हुए बम्बाला गांव को शामिल करते हुए द्रव्यवती नदी को पार करते हुए पश्चिम दक्षिण दिशा में रेल्वे लाइन तक। यहाँ से दक्षिण-पूर्व की ओर रेल्वे लाइन के सहारे-सहारे चलते हुए सीतापुरा टोंक रोड ओवर ब्रिज तक का समस्त क्षेत्र, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर मुख्य टोंक रोड से बम्बाला पुलिया तक दायें हिस्से एंव नगर निगम सीमा को शामिल करते हुए व बॉये भाग का समस्त क्षेत्र, यहाँ से बम्बाला पुलिया को पार करते हुए समस्त दौये भाग छोड़ते हुए हल्दी घाटी चौराहे तक के बाये भाग का समस्त क्षेत्र। | 16928 |
| 66 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 66 | बम्बाला पुलिया से नगर निगम सीमा के सहारे-सहारे पूर्व की ओर चलते हुए स्वारथ्य विश्वविद्यालय तक। यहाँ से उत्तर की ओर भैरव जी मन्दिर होते हुए पन्नाधाय सर्किल तक यहाँ से हल्दीघाटी मार्ग पर पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए टोंक रोड हल्दीघाटी रोड तक यहाँ से टोंक रोड पर दक्षिण-पूर्व दिशा में चलते हुए बाये हिस्से को शामिल करते हुए बम्बाला पुलिया को पार करते हुए नगर निगम की सीमा तक का समस्त क्षेत्र। | 17257 |
| 67 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 67 | पन्नाधाय सर्किल से पश्चिम दिशा बाये भाग को शामिल करते हुए श्योपुर रोड पर चलते हुए, टोंक रोड को क्रोस करते हुए पिंजरा पोल गौशाला को | 17808 |

| | | | | |
|----|----------------------------|----|--|-------|
| | | | शामिल करते हुए गौशाला की बाउण्ड्री के सहारे—सहारे द्रव्यवति नदी तक यहाँ से दक्षिण की ओर चलते हुए गूलर का बन्धा को शामिल करते हुए शिकारपुरा रोड तक यहाँ से उत्तर—पूर्व दिशा की ओर सेक्टर 35 को शामिल करते हुए हल्दी घाटी मार्ग पर चलते हुए पन्ना धाय सर्किल तक का समस्त क्षेत्र। | |
| 68 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 68 | मुख्य टोंक रोड से जोधपुर कचोरी वाला को शामिल करते हुए गली की सड़क पर पूर्व दिशा में चलते हुए बाईंस मेमोरियल सैकण्डरी स्कूल को बायी ओर छोड़ते हुए टीन के गोदाम शीतल जेन्ट्स पालर, लक्ष्मी बर्तन भण्डार एवं काकरी, आवासन मण्डल की कॉलोनी की दांयी तरफ शामिल करते हुए श्योपुर राजस्व गांव के सीमा के सहारे—सहारे सेक्टर 71 सेक्टर 76 सावित्री विहार चक गेटोर सीमा दीपक कॉलोनी, कृष्णा विहार, कपिल विहार, मोती विहार, गणेश विहार, इन्द्र विहार, गंगा विहार पशुपति नाथ नगर, श्रीनाथ नगर, मंगल विहार, राजाराम की ढाणी, आर के पुरम, पन्नाधाय सर्किल श्योपुर गांव शामिल करते हुए हल्दीघाटी रोड पन्नाधाय सर्किल तक, पन्नाधाय सर्किल से श्योपुर रोड पर चलते हुए दायें हिस्से शामिल करते हुए बांये हिस्से छोड़ते हुए मुख्य टोंक रोड तक, टोंक रोड से पश्चिम की ओर गौशाला की बाउण्ड्री को छोड़ते हुए व दायें हिस्से को शामिल करते हुए द्रव्यवती नदी तक यहाँ से उत्तर की ओर द्रव्यवती नदी के सहारे सहारे दायें हिस्से शामिल करते हुए सांगासेतु पुलिया तक। यहाँ से पूर्व की ओर दांयी ओर की सभी कॉलोनियों को लेते हुए सांगानेर सर्किल तक। सांगानेर सर्किल से मुख्य टोंक रोड पर चलते हुए बैरवा कॉलोनी रोड जोधपुर कचोरी वाले तक। | 23522 |
| 69 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 69 | सॉगा सेतु पुलिया से पश्चिम दिशा की ओर स्टेडियम रोड पर चलते हुये बाये भाग को सम्मलित करते हुये चौरडिया पैट्रोल पम्प तक। यहाँ से दक्षिणी दिशा में डिग्गी मालपुरा रोड पर चलते हुए पावर हाउस के सामने के क्षेत्र को लेते हुए कब्रिस्तान तक। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर किसान कॉलोनी रोड पर चलते हुये रेगर मौहल्ला, कागजी कॉलोनी को शामिल करते हुए रामबेरी तक। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चलकर बायी तरफ के हिस्से को शामिल करते हुये सांगा सेतु पुलिया तक का समस्त क्षेत्र। | 18411 |
| 70 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 70 | सॉगा सेतु पुलिया से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये द्रव्यवती नदी के सहारे—सहारे चलते हुये रीको रेल्वे लाइन ओवर ब्रिज तक। यहाँ से दक्षिण दिशा में रेल्वे लाइन के साथ—साथ चलते हुए रामपुरा रेल्वे फाटक होते हुये सांगानेर रेल्वे स्टेशन तक। यहाँ से पूर्वी दिशा की ओर चलते हुये सांगानेर पावर हाउस डिग्गी मालपुरा रोड तक। यहाँ से डिग्गी मालपुरा रोड तक। | 18275 |

| | | | | |
|----|----------------------------|----|--|-------|
| | | | रोड पर उत्तर दिशा की तरफ चलते हुय चौरडिया पेट्रोल पम्प तिराहे तक। यहाँ से पूर्वी दिशा में सांगानेर स्टेडियम रोड के बाये भाग को शामिल करते हुए सांगासेतु पुलिया तक का समस्त क्षेत्र। | |
| 71 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 71 | दुर्गापुरा ओवर ब्रिज के नीचे से उत्तर दिशा की ओर नगर निगम वार्ड कार्यालय से शोपिंग सेन्टर के साथ रेल्वे लाइन को शामिल करते हुए पूर्व दिशा की ओर जादोन नगर बी, शिव कॉलोनी को शामिल करते हुए द्वाल वाली रोड से पश्चिम की तरफ चलते हुए दाये भाग को छोड़ते हुए एवं बाये भाग को सम्मिलित करते हुये बृहस्पति धाम मंदिर होते हुए द्रव्यवती नदी तक। यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर द्रव्यवती नदी के सहारे-सहारे चलते हुये पृथ्वीराज नगर, रघुविहार, महावीर नगर विश्वकर्मा नगर, गायत्री नगर आदि को सम्मिलित करते हुए दुर्गापुरा कृषि फार्म फनकिंगडम होते हुये सवाई माधोपुर रेलवे लाइन को पार करते हुये पूर्व दिशा की ओर जैम स्टोन पार्क को लेते हुए टोक रोड तक तथा यहाँ से उत्तर की ओर चलते हुय बाये भाग में तरुछाया नगर, सुर्यनगर, आदि को शामिल करते हुये मैन टोक रोड पर दुर्गापुरा डालडा फैक्ट्री रोड तिराहे तक तथा यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर दुर्गापुरा ओवर ब्रिज के नीचे तक का समस्त क्षेत्र। | 23478 |
| 72 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 72 | त्रिवेणी नगर ओवर ब्रिज से गोपालपुरा बाईपास रोडपर उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हुए बाये तरफ की समस्त कॉलोनियाँ को लेते हुए नाले की पुलिया तक यहाँ से नाले के सहारे-सहारे दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हुए बाये तरफ की कॉलोनियों को लेते हुए द्रव्यवती नदी के जंक्शन तक यहाँ से द्रव्यवती नदी के सहारे-सहारे दक्षिण की तरफ बृहस्पति धाम मंदिर तक यहाँ से पूर्व दिशा की ओर चलते शोपिंग सेन्टर तक एवं यहाँ उत्तर दिशा की ओर बजरी मण्डी रोड पर चलते हुए त्रिवेणी नगर पुलिया तक का समस्त पश्चिमी क्षेत्र। | 25371 |
| 73 | सांगानेर विधान सभा क्षेत्र | 73 | त्रिवेणी नगर ओवर ब्रिज के नीचे रेल्वे लाइन के सहारे उत्तर दिशा की तरफ भवन सं. 126 अशोंक विहार को शामिल करते हुए रेल्वे लाइन के सहारे-सहारे चलते हुए गोपाल नगर की बालाजी डेंटल क्लीनिक को सम्मिलित करते हुए उत्तर दिशा में अर्जुन नगर रेलवे फाटक को दाये हिस्से को छोड़ते हुए उत्तर की ओर रेल्वे लाइन के साथ-साथ शनि मंदिर तक। यहाँ से पश्चिम की ओर शिव निवास मैरिज गार्डन को दाये छोड़ते हुए हरियाणा स्वागत लॉन को बायी तरफ को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर पुष्पांजली कॉलोनी के भवन सं. 01 को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा की ओर शुभम् विहार मिश्री लाल कच्छावा का भवन सं. 05 की बायी ओर शामिल करते हुए पश्चिम दिशा की ओर पानी की टंकी एवं पार्क को दायी ओर छोड़ते हुए पश्चिम दिशा की ओर गुप्ता हॉस्पीटल को शामिल | 22323 |

| | | | | |
|----|------------------------|----|---|-------|
| | | | करते हुए भोलानाथ होण्डा केयर को दौये छोड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर इण्डियन केम्ब्रिज स्कूल, भूखण्ड सं. 300 शामिल पश्चिम दिशा की ओर रोड के सहारे—सहारे चलते हुए स्वेज फार्म के बॉये तक, नाले के साथ चलते हुए श्री गोपाल नगर को शामिल करते हुए जेवीवीएनल के कार्यालय एवं नीरजा ब्लू पॉटरी को सम्मिलित करते हुए दक्षिण की तरफ स्वेज फार्म नाले की पुलिया तक। मैन गोपालपुरा फ्लाई ओवर की तरफ बांयी तरफ की कॉलोनी को शामिल करते हुए रिद्धी—सिद्धी चौराहे होते हुए त्रिवेणी नगर ओवर ब्रिज तक का समस्त क्षेत्र। | |
| 74 | बगरु विधान सभा क्षेत्र | 74 | 200 फीट बाईपास रोड नन्दपुरी पुलिया नाले से दक्षिण—पूर्व की ओर नाले के सहारे—सहारे (नाले को छोड़ते हुये) पश्चिम भाग का सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित करते हुये जगतपुरा मनोहरपुरा पुलिया तक, नाले के सहारे—सहारे सिद्धार्थ नगर एयरपोर्ट सीमा तक समस्त उत्तरी भाग, एयरपोर्ट सीमा के साथ—साथ पश्चिम की ओर चलते हुये सुलभ कॉम्प्लेस के कोने तक, दक्षिण की ओर एयरपोर्ट की सीमा के सहारे—सहारे कल्याण नगर, नागरिक नगर को सम्मिलित करते हुए एयरपोर्ट सीमा के कोने तक का सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र टॉक रोड पर एयरपोर्ट सीमा के कोने से पुनः उत्तर की ओर बी टू बाईपास चौराहे (हरिशंकर ढाबा) तक का सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र, हरिशंकर ढाबा, टॉक रोड से ई.पी. की ओर जवाहर सर्किल को छोड़ते हुए पूर्व की ओर 200 फीट बाईपास सड़क पर नन्दपुरी पुलिया नाले तक का सम्पूर्ण दक्षिणी क्षेत्र। | 20636 |
| 75 | बगरु विधान सभा क्षेत्र | 75 | टॉक रोड पर मोरानी मोर्टर्स से आगे एयरपोर्ट की सीमा के कोने से एयरपोर्ट की सीमा के सहारे—सहारे चलते हुये उत्तर की ओर कल्याण नगर, नागरिक नगर एवं सुलभ कॉम्प्लेक्स को छोड़ते हुए एयरपोर्ट सीमा के कोने से पूर्व की ओर सीमा के सहारे—सहारे एयरपोर्ट को शामिल करते हुए पूर्वी क्षेत्र के कोने तक, एयरपोर्ट के पूर्वी कोने से पूर्व से दक्षिण की ओर चलते हुए 200 फीट रोड तक, दक्षिणी हिस्से से पश्चिम की ओर एयरपोर्ट सीमा के सहारे—सहारे चीलगाड़ी रेस्टोरेन्ट तक चीलगाड़ी रेस्टोरेन्ट को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर 100 फीट रोड पर चलते हुए सेक्टर 6 प्रताप नगर पार्क के कोने तक का सम्पूर्ण पश्चिमी क्षेत्र पार्क के कोने से बैरवा कॉलोनी वाली रोड, पश्चिम की ओर टॉक रोड तक का (संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र बगरु विधानसभा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए) होटल धुब्रबार से उत्तर की ओर टॉक रोड पुलिया के नीचे तक का संपूर्ण पूर्वी भाग, टॉक रोड पुलिया से पश्चिम की ओर चलते हुए द्रव्यवती नदी पुलिया तक का संपूर्ण उत्तरी भाग, (कुन्दन नगर को छोड़ते हुए) द्रव्यवती नदी के सहारे—सहारे उत्तर की ओर जैम स्टोन पार्क के अंतिम छोर तक का पूर्वी भाग जैम | 20711 |

| | | | | |
|----|------------------------|----|---|-------|
| | | | स्टोन पार्क के अंतिम छोर (द्रव्यवती नदी) से पूर्व की ओर टॉक रोड तक (समस्त दक्षिणी भाग), टॉक रोड से दक्षिण की ओर चलते हुए मोरानी मोटर्स के आगे एयरपोर्ट सीमा का संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र (उक्त सीमा के अन्तर्गत का संपूर्ण क्षेत्र)। | |
| 76 | बगरु विधान सभा क्षेत्र | 76 | चीलगाड़ी रेस्टोरेन्ट के पास उत्तर की ओर एयरपोर्ट सीमा से पूर्व की ओर 200 फीट रोड पर एयरपोर्ट सीमा के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक समस्त दक्षिणी भाग, दक्षिणी-पूर्वी कोने से उत्तर की ओर एयरपोर्ट सीमा से जगतपुरा मुख्य सड़क पर गोल्डन डोम बिल्डिंग के कोने तक समस्त पूर्वी भाग, गोल्डन डोम बिल्डिंग के कोने से पूर्व की ओर मुख्य सड़क, ब्रज विहार को छोड़ते हुए और अशोक विहार को शामिल करते हुए टट्लर्स स्कूल महल रोड तक समस्त दक्षिणी भाग, टट्लर्स से दक्षिण की ओर 7 नं. बस स्टेप्पण से आगे एन.आर.आई. चौराहे तक समस्त पश्चिमी भाग। एन.आर.आई. चौराहा से हल्दी-घाटी रोड पर महाराणा प्रताप सर्किल से आगे मीना हॉस्टल बड़े नाले की पुलिया तक का सम्पूर्ण उत्तरी भाग, बड़े नाले की पुलिया से दक्षिण की ओर नाले के सहारे-सहारे देहलावास हनुमान मंदिर से पीछे द्रव्यवती नदी तक, नगर निगम सीमा को सम्मिलित करते हुए (चतराला ग्राम आदि) सम्पूर्ण पश्चिमी भाग, द्रव्यवती नदी से दहलावास हनुमान मंदिर के सामने से होते हुए मुख्य सड़क से उत्तर की ओर भैरू जी सर्किल चौराहा से आगे पन्नाधाय सर्किल चौराहे तक का सम्पूर्ण पूर्वी भाग, पन्नाधाय सर्किल से उत्तर पश्चिम में श्यांपुर गांव की ओर चलते हुए सहकारी समिति के सामने पश्चिम की ओर चलते हुए विद्यासागर स्कूल को छोड़ते हुए बगरु विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर 6 प्रताप नगर पार्क के कोने तक, सेक्टर 6 प्रताप नगर पार्क के कोने से 100 फीट रोड पर उत्तर की ओर चीलगाड़ी रेस्टोरेन्ट के आगे एयरपोर्ट सीमा तक का सम्पूर्ण पूर्व क्षेत्र। | 20193 |
| 77 | बगरु विधान सभा क्षेत्र | 77 | मीणा हॉस्टल हल्दीघाटी रोड नाले की पुलिया से पूर्व की ओर चलते हुये हल्दीघाटी रोड पर एन.आर.आई. चौराहा से आगे गोनेर रोड पर वी.आई.टी कॉलेज के पीछे नगर निगम सीमा तक का सम्पूर्ण दक्षिणी भाग वीआईटी के पीछे नगर निगम के सहारे सहारे दक्षिण पश्चिम की ओर मुरलीपुरा ग्राम को शामिल करते हुये ग्राम जीरौता, श्री किशनपुरा, जयसिंह पुरा राजस्व ग्रामों को छोड़ते हुये महल रोड तक का सम्पूर्ण उत्तरी भाग। महल रोड से पश्चिम की ओर दुव्यवती नदी के सहारे सहारे देहलावास हनुमान मन्दिर के पीछे बड़े नाले तक का सम्पूर्ण उत्तरी भाग। देहलावास हनुमान मन्दिर के पीछे सेक्टर 18 की नाले की पुलिया से बड़े नाले के सहारे सहारे उत्तर की ओर मीणा हास्टल हल्दीघाटी रोड पर बड़े नाले की पुलिया तक का सम्पूर्ण पूर्वी भाग। | 20144 |

| | | | | |
|----|------------------------|----|---|-------|
| 78 | बगरु विधान सभा क्षेत्र | 78 | नन्दपुरी नाले से पूर्व की तरफ वार्ड कार्यालय के पीछे से रेलवे अन्डर पास पुलिया तक समस्त दक्षिणी भाग, रेलवे अन्डर पास पुलिया से ऊपर की तरफ पटरी के सहारे—सहारे रेलवे स्टेशन से पहले विवेक विहार तक समस्त दक्षिणी भाग, (सम्पूर्ण विवके विहार) विवेक विहार मोड़ से शिव मन्दिर के सामने से होते हुए जगतपुरा मुख्य सड़क तक समस्त पश्चिमी भाग, विवेक विहार मोड़ से जगतपुरा मुख्य बाजार रोड़ पश्चिम की ओर 20 नं. बस स्टेण्ड को शामिल करते हुए एयरपोर्ट सीमा से पहले बड़े नाले की छोटी पुलिया तक समस्त पश्चिमी भाग, बड़े नाले की पुलिया से उत्तर की ओर नाले के सहारे—सहारे (नाले को शामिल करते हुए) 200 फीट बाईपास नन्दपुरी नाले की पुलिया तक समस्त पूर्वी भाग। | 18614 |
| 79 | बगरु विधान सभा क्षेत्र | 79 | एन.आर.आई. चौराहा महल रोड़ 7 नं. बस स्टेण्ड से आगे टटल्स स्कूल के कोने तक समस्त पूर्वी भाग, टटल्स स्कूल के कोना महल रोड़ पश्चिम की ओर गोल्डन डोम बिल्डिंग की तरफ जाने वाली सड़क पर बिल्डिंग के मुख्य गेट के कोने से पहले एयरपोर्ट सीमा की तरफ वाली सड़क पर समस्त उत्तर भाग। गोल्डन डोम बिल्डिंग के कोने से एयरपोर्ट सीमा के उत्तर—पूर्वी कोने तक समस्त पश्चिमी भाग, एयरपोर्ट सीमा के उत्तर—पूर्वी कोने से एयरपोर्ट सीमा के सहारे—सहारे चलते हुए गन्दे नाले की पुलिया तक समस्त उत्तरी भाग, गन्दे नाले की पुलिया से पूर्व की ओर जगतपुरा मुख्य सड़क पर विवेक विहार मोड़ तक समस्त पूर्वी भाग, विवेक विहार मोड़ से उत्तर की ओर शिव मन्दिर के आगे रेलवे लाईन पटरी तक समस्त पूर्वी भाग, रेलवे लाईन पटरी से पूर्व की ओर जगतपुरा फाटक से आगे (सी.बी.आई. फाटक, कुन्दनपुरा फाटक, खातीपुरा फाटक) दांतली फाटक नगर निगम अंतिम सीमा तक राजस्व ग्राम जयपुरा को शामिल करते हुए समस्त दक्षिणी भाग, दांतली फाटक से पश्चिम की ओर नगर निगम सीमा के सहारे—सहारे दक्षिण की ओर राजस्व ग्राम मैंदला को शामिल करते हुए वी.आई.टी. कॉलेज तिहारे पर अंतिम सीमा तक समस्त पश्चिमी भाग, वी.आई.टी. तिहारे से पश्चिम की ओर (महल रोड़ की ओर) मुख्य सड़क महल रोड़ पर एन.आर.आई. चौराहे तक समस्त उत्तरी भाग। | 24681 |
| 80 | बगरु विधान सभा क्षेत्र | 80 | चन्द्रमहल गार्डन के पीछे टी-पॉइन्ट से दक्षिण की ओर खो—नागोरियान रोड पर चलते हुये पश्चिमी भाग को सम्मिलित करते हुये (भावगढ़ बंध्या मोड़) रामदेव बाबा मंदिर तिहारे से पूर्व की ओर बंध्या रोड पर नगर निगम सीमा रोपाड़ा राजस्व ग्राम पोस्ट का आंशिक भाग को सम्मिलित करते हुए समस्त दक्षिणी भाग को लेते हुये, नगर निगम सीमा की आखरी छोर से दक्षिण की ओर दिल्ली जयपुर रेलवे लाईन, दांतली फाटक तक का सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र, दांतली फाटक रेलवे लाईन के सहारे—सहारे सी०बी०आई० | 15911 |

| | | | | |
|----|------------------------|----|--|-------|
| | | | फाटक तक का संपूर्ण पश्चिमी भाग, सी०बी०आई० फाटक से उत्तर की ओर गोनेर रोड पर शूटिंग रैंज को छोड़ते हुए वन विभाग की भूमि से पहाड़ के ऊपर चलते हुए चन्द्रमहल गार्डन के पीछे तिराहे तक का सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र। | |
| 81 | बगरु विधान सभा क्षेत्र | 81 | बंधा मोड गोनेर रोड पर उत्तर की ओर लुणियावास बस स्टेप्ड तक पूर्वी क्षेत्र, लुणियावास बस स्टेप्ड डी० एस० हॉस्पीटल रोड पर महावीर नगर, तिराहे से कच्ची बस्ती तिराहे के आगे तिलक हॉस्पीटल के सामने आगरा रोड तक सम्पूर्ण पूर्वी हिस्सा, तिलक हॉस्पीटल के सामने से आगरा रोड पूर्व की ओर पुरानी चुगीं नाके तक का समस्त दक्षिणी भाग, पुरानी चुंगी नाके से दक्षिण की ओर आगे नगर निगम सीमा के साथ-साथ हीरापुरा, लखेसरा, खोरी गोविंदपुरा के राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुये रोपाडा ग्राम के आंशिक भाग को सम्मिलित करते हुये नगर निगम सीमा पर बंधा मोड तक पश्चिमी भाग, बंधा मोड नगर निगम सीमा से पश्चिमी ओर गोनेर रोड पर बंधा मोड तिराहे तक का संपूर्ण उत्तरी भाग। | 21695 |
| 82 | बगरु विधान सभा क्षेत्र | 82 | चन्द्रमहल गार्डन, आगरा रोड से पूर्व की ओर तिलक हॉस्पीटल तक का संपूर्ण दक्षिण भाग। तिलक हॉस्पीटल तिराहे से दक्षिण की ओर कच्ची बस्ती को छोड़ते हुए, महावीर नगर तिराहे से लुणियावास बस स्टेप्ड तक का संपूर्ण उत्तरी-पश्चिमी हिस्सा, लुणियावास बस स्टेप्ड से गोनेर रोड जयपुर की ओर कल्लु होटल के आगे चन्द्रमहल गार्डन तक का उत्तरी-पूर्वी हिस्सा। | 16030 |
| 83 | बगरु विधान सभा क्षेत्र | 83 | चन्द्रमहल गार्डन के पीछे तिराहे से गोनेर रोड पर पूर्व की ओर दक्षिणी हिस्से को शामिल करते हुये लुणियावास बस स्टेप्ड तक, बस स्टेप्ड से दक्षिण की ओर चलते हुए बंधा मोड तक समस्त पश्चिमी भाग, बंधा मोड से पश्चिम की ओर भावगढ़ बंधा रोड रामदेव बाबा मंदिर खानियां रोड तिराहे तक का सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र, रामदेव बाबा मंदिर से खानिया रोड पर उत्तर की ओर बिजली पावर हाऊस के कोने तक संपूर्ण पूर्वी भाग | 17008 |
| 84 | बगरु विधान सभा क्षेत्र | 84 | अपेक्ष सर्किल से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए जी.एस.आई. के सामने बढ़े नाले तक व यहां से उत्तर-पूर्व नाले सहारे-सहारे नाले को शामिल करते हुए, उत्तर दिशा की झालाना डुंगरी की आबादी को छोड़ते हुए एवं नाले को शामिल करते हुये दक्षिण भाग की आबादी को शामिल करते हुए नाहर सिंहबाबा के मन्दिर तक का सम्पूर्ण दक्षिण भाग को शामिल करते हुए झालाना पहाड़ी होते हुए वन विभाग की भूमि होते हुये आबादी को छोड़ते हुये खानियां तिराहे तक, वन विभाग की भूमि से दक्षिण की ओर चलते हुये पहाड़ी टिले तक, पहाड़ी टीले से पश्चिम की ओर नाले से औदौगिक क्षेत्र की मुख्य सड़क से अपेक्ष सर्किल तक का सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी | 18940 |

| | | | भाग तक। | |
|----|-----------------------------|----|---|-------|
| 85 | बगरु विधान सभा क्षेत्र | 85 | अपेक्ष सर्किल चौराहे से पूर्व की ओर औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य सड़क नाले के ऊपर से वन विभाग भूमि से पहाड़ी के ऊपर तक का संपूर्ण दक्षिणी भाग, पहाड़ी के ऊपर टीले तक, दक्षिण की ओर से शूटिंग रेंज को शामिल करते हुए खो-नागोरियान रोड पर सी०बी०आई० फाटक तक संपूर्ण पश्चिमी भाग, सी०बी०आई०फाटक से पटरी के सहारे-सहारे जगतपुरा फाटक से आगे नन्दपुरी पुलिया अण्डरपास, 200 फीट बाईपास से बालाजी मोड तिराहा होते हुए अपेक्ष सर्किल तक (संपूर्ण उत्तरी-पूर्वी भाग) | 18955 |
| 86 | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र | 86 | ज्योति राव फुले कॉलेज सर्किल के पास स्थित सर्किल से पूर्व की ओर चलते हुए नन्दपुरी रोड पर स्थित मंगल मंच मैरिज गार्डन तक का दाहिनी ओर का क्षेत्र तथा यहाँ से उत्तर दिशा में चलते हुए हवा सड़क होटल हिल्टन का कोना नन्दपुरी मोड तक का दाहिनी ओर का क्षेत्र तथा यहाँ से होटल हिल्टन से पूर्व दिशा की ओर हवा सड़क पर चलते हुए 22 गोदाम फाटक, सर्वाई माधोपुर, रेल्वे लाइन के दाहिनी ओर का क्षेत्र यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर रेल्वे ट्रेक के सहारे-सहारे चलते हुए करतारपुरा गंदे नाले तक का दाहिनी ओर का क्षेत्र तथा यहाँ से पश्चिम की ओर गन्दे नाले के सहारे सहारे चलते हुए ज्योति राव फुले कॉलेज के पीछे वाली रोड तक तथा यहाँ से उत्तर की ओर ज्योति राव फुले कॉलेज तक का दाहिनी ओर का क्षेत्र। | 18112 |
| 87 | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र | 87 | 22 गोदाम पुलिया/फाटक सर्वाईमाधोपुर रेल्वे लाइन ट्रेक से पूर्व दिशा में भवानी सिंह रोड चलते हुए एल.आई.सी ऑफिस के उत्तरी पश्चिमी कोने तक तथा यहाँ से दक्षिण दिशा में दाहिनी भाग के कठपुतली नगर को शामिल करते हुए एल.आई.सी बिल्डिंग कोने से विधान सभा रोड तक तथा यहाँ से पूर्व दिशा में घूमते हुए विधान सभा के उत्तरी-पश्चिमी कोने तक तथा यहाँ से दक्षिण दिशा में चल कर विधान सभा को छोड़ते हुए विधान सभा के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक तथा यहाँ से पश्चिम दिशा में चल कर इमली वाले फाटक होते हुए करतारपुरा फाटक रोड तक तथा यहाँ से पश्चिम दिशा में करतारपुरा फाटक क्रोस करते हुए गंदे नाले तक तथा यहाँ से उत्तर तथा पूर्व दिशा में गंदे नाले के सहारे सहारे होते हुए सर्वाईमाधोपुर रेल्वे लाइन के सहारे सहारे चलकर 22 गोदाम पुलिया तक। | 22852 |
| 88 | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र | 88 | करतारपुरा फाटक रोड व इमली वाला फाटक रोड जनकशन कोने से दक्षिण दिशा में चलते हुए बरकत नगर रोड लक्ष्मी स्वीटर्स कैटर्स के सामने तक तथा यहाँ से पश्चिम दिशा में महेश नगर फाटक क्रोस करते हुए 80 फीट रोड पर चलकर बालाजी सेल्स | 19034 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|----|---|-------|
| | | | कॉरपोरेशन के सामने तक तथा यहाँ से उत्तर दिशा में महेश नगर ए ब्लॉक को छोड़ते हुए बाल नगर तक तथा यहाँ से पश्चिम दिशा में चल कर गंदे नाले तक तथा यहाँ से उत्तर व पूर्व में गंदे नाले के सहारे सहारे चलकर करतारपुरा रोड तक तथा यहाँ से पूर्व दिशा में चलकर करतारपुरा फाटक रोड चलते हुए करतारपुरा फाटक क्रोस कर ईमली फाटक रोड तक। | |
| 89 | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र | 89 | अर्जुन नगर फाटक से रेलवे ट्रेक के सहारे सहारे उत्तरी दिशा की तरफ चलते हुए पुष्पांजली मार्ग (हरियाणा लोन वाली रोड) कोने तक तथा यहाँ से पश्चिम दिशा में विधानसभा क्षेत्र की सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए दाहिनी तरफ का हिस्सा अग्रसेन नगर महेश नगर सी ब्लॉक को शामिल करते हुए गणेश मार्ग 80 फीट रोड कोने पर जोधपुर मिष्ठान भण्डार तक तथा यहाँ से पश्चिम दिशा में सूरज नगर को शामिल करते हुए गंदे नाले तक तथा यहाँ से उत्तर दिशा में नाले के सहारे सहारे पूर्व दिशा में दाहिनी ओर में सूरज नगर महेश नगर ए ब्लॉक को शामिल करते हुए तथा बाल नगर को छोड़ते हुए ए-198 तथा यहाँ से तक महेश नगर 80 फीट रोड तथा यहाँ से पूर्व दिशा में महेश नगर 80 फीट रोड पर चलते हुए फाटक क्रॉस कर मुख्य ईमली वाला फाटक (किसान मार्ग) रोड चौराहे (लक्ष्मी स्वीट्स कैटर्स) तक तथा यहाँ से दक्षिण दिशा में मुख्य ईमली वाला फाटक रोड चलते हुए अर्जुन नगर फाटक रोड होते हुए अजमेरा फर्नीचर तक व यहाँ से पूर्व दिशा में अर्जुन नगर फाटक तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र। | 20267 |
| 90 | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र | 90 | टोंक रोड पर कमल एण्ड कम्पनी के सामने देव नगर मुख्य रोड कोने से पश्चिम की तरफ देव नगर मुख्य रोड पर चलते हुए रेलवे ट्रेक तक वन विहार को छोड़ते हुए तथा बरकत नगर विस्तार के भाग को लेते हुए तथा यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए अर्जुन नगर फाटक तक तथा यहाँ से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए ईमली वाले फाटक मुख्य रोड (किसान मार्ग) तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से ईमली फाटक मुख्य रोड पर चलते हुए बरकत नगर मुख्य रोड चौराहे पर स्थित लक्ष्मी स्वीट्स कैटर्स तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से पूर्व दिशा की तरफ बरकत नगर मुख्य रोड पर चलते हुए टोंक फाटक तक तथा यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ टोंक रोड के दाहिनी तरफ के हिस्से को शामिल करते हुए टोंक रोड पर कमल एण्ड कम्पनी के सामने देव नगर मुख्य रोड के कोने तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र। | 20654 |
| 91 | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र | 91 | टोंक रोड दुर्गापुरा तिराहे से पश्चिम की तरफ चलते हुए दुर्गापुरा रेलवे ब्रिज तक तथा यहाँ से रेलवे ट्रेक के सहारे सहारे उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए | 21227 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|----|--|-------|
| | | | रेलवे ट्रैक के सहारे सहारे बरकत नगर विस्तार (भाग) वन विहार के पीछे के हिस्से को लेते हुए तथा पूरे वन विहार को लेते हुए किसान मार्ग पर देव नगर मुख्य रोड जंक्शन तक तथा यहाँ से पूर्व की तरफ मुख्य देव नगर रोड पर चलते हुए टोंक रोड कमल एण्ड कम्पनी के सामने तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए टोंक रोड शहीद के गटटे रेलवे लाईन तक तथा यहाँ से पूर्व व दक्षिण दिशा में रेलवे लाईन के सहारे सहारे चलते हुए प्रताप नगर को शामिल करते हुए दैनिक भास्कर पुलिया के नीचे ट्रैक तिराहे तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से हिम्मत नगर के पश्चिम हिस्से को शामिल करते हुए टोंक रोड पर किरण स्वीट्स तक तथा यहाँ से मुख्य टोंक रोड तक दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए टोंक रोड दुर्गापुरा तिराहे तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र। | |
| 92 | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र | 92 | टोंक रोड पर बी.टू. बाईपास चौराहा जयपुर सेन्ट्रल से शुरू होकर उत्तर की तरफ टोंक रोड पर चलते हुए गोपालपुरा चौराहा पर केपस्टन मीटर उत्तरी दक्षिण कोने तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए दाहिनी तरफ इन्द्रा नगर को शामिल करते रेलवे लाईन तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से रेलवे लाईन के सहारे दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए बड़े नाले तक तथा यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ नाले के सहारे सहारे जयपुरिया अस्पताल एवं रामजीपुरा का क्षेत्र लेते हुए नाले के सहारे सहारे 200 फीट बाईपास तक दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से 200 फीट बाईपास नाले से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए जवाहर सर्किल को शामिल करते हुए बी.टू. बाईपास चौराहा टोंक रोड तक दाहिनी भाग का क्षेत्र। | 19563 |
| 93 | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र | 93 | 200 फीट बाईपास रेलवे फाटक अण्डर पास से शुरू होकर पश्चिम दिशा की तरफ 200 फीट रोड पर चलते हुए बड़े नाले तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से नाले के सहारे—सहारे उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए सिद्धार्थ नगर व विजय नगर को लेते हुए नाले के सहारे—सहारे बड़े नाले व दिल्ली रेलवे क्रॉसिंग तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से रेलवे लाईन के सहारे सहारे पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए गौरव टावर को शामिल करते हुए रेलवे अण्डर पास 200फीट बाईपास तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र। | 20409 |
| 94 | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र | 94 | 200 फीट रोड नन्दपुरी रेलवे अण्डर पास से शुरू होकर रेलवे लाईन के सहारे—सहारे उत्तर पश्चिम की ओर प्रधानमार्ग पर चलते हुए गोस्वामी तुलसीदास मार्ग तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से पूर्व की ओर चलते हुए अग्रसेन मार्ग तक तथा यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए शिवानन्द मार्ग अग्रवाल समाज भवन तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से शिवानन्द मार्ग पर उत्तर | 19685 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|----|---|-------|
| | | | दिशा की तरफ चलते हुए केलगिरी रोड तक तथा यहाँ से पूर्व दिशा की तरफ केलगिरी रोड पर चलते हुए अपेक्ष सर्किल तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ बाईपास रोड पर चलते हुए सैक्टर 1, 2, 3, 4 व ऊषा कॉलोनी को शामिल करते हुए 200 फीट रोड नन्दपुरी रेलवे अण्डरपास तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र। | |
| 95 | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र | 95 | जे.एल.एन. मार्ग पर ओटीएस चौराहे से शुरू कर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए झालाना डूंगरी बाईपास (केन्द्रीय विधालय नं. 03 के कोने तक) का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए झालाना बाईपास तक झालाना ग्राम को लेते हुए अपेक्ष सर्किल तक व यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए शिवानन्द मार्ग के कोने तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से शिवानन्द मार्ग तक दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए अग्रसेन भवन तक तथा यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए अग्रसेन मार्ग पर चलते हुए गोस्वामी तुलसीदास मार्ग तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए ए व बी ब्लॉक को शामिल करते हुए प्रधानमार्ग रेलवे ट्रेक तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा प्रधान मार्ग पर रेलवे ट्रेक के सहारे सहारे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए मौजी कॉलोनी को शामिल करते हुए पिकॉक गार्डन के कोने तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से उत्तर की ओर जे.एल.एन. मार्ग तक चलते हुए ओटीएस चौराहे तक दाहिनी भाग का क्षेत्र। | 21468 |
| 96 | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र | 96 | गांधी सर्किल से शुरू करते हुए पूर्व दिशा की ओर गांधी पथ पर चलते हुए अरण्य भवन चौराहे से दिल्ली बाईपास की दाहिनी ओर बाईजी की कोठी झालाना कच्ची बस्ती को शामिल करते हुए बड़े नाले तक व नाले के सहारे—सहारे दाहिनी भाग को शामिल करते हुए झालाना बाईपास तक व यहाँ से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए केन्द्रीय विधालय नं. 03 तक व यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए ओटीएस चौराहे तक व यहाँ से पूर्व दिशा की ओर जे.एल.एन. मार्ग तक पिकॉक गार्डन के पास रेलवे ट्रेक तक व यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर रेलवे लाईन के सहारे सहारे जयपुर सरस डेयरी व दैनिक भास्कर को शामिल करते हुए व गांधी नगर रेलवे स्टेशन को शामिल करते हुए टोंक फाटक से व यहाँ से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए केन्द्रीय विधालय नं. 01 को छोड़ते हुए पूर्व दिशा की ओर शहीद अभिमन्यु मार्ग होते हुए जे.एल.एन. मार्ग तिराहे तक व यहाँ से उत्तरी दिशा की ओर दाहिनी ओर कामर्स कालेज राजस्थान कालेज को शामिल करते हुए गांधी सर्किल तक। | 18882 |
| 97 | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र | 97 | टोंक फाटक से पश्चिम दिशा की तरफ मुख्य बरकत नगर रोड पर चलते हुए मुख्य ईमली वाला फाटक | 21703 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|--|-------|
| | | | रोड तक तथा यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए दाहिने हिस्से को शामिल करते हुए ईमली वाला फाटक तक तथा यहाँ से पूर्व दिशा की तरफ विधानसभा के पीछे वाली रोड पर चलते हुए टॉक रोड पर कैलाश टावर के कोने तक तथा यहाँ से दक्षिण दिशा में मुख्य टॉक रोड तक दाहिनी भाग का हिस्सा नेहरू पैलेस को लेते हुए टॉक फाटक तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र। | |
| 98 | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र | 98 | गांधी सर्किल से शुरू होकर दक्षिण दिशा की ओर जेएलएन मार्ग पर चलते हुए जवाहर कला केन्द्र के कोने तक व यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर अभिमन्यु मार्ग पर चलते हुए केन्द्रीय विधालय नं. 01 के टॉक फाटक तिराहे तक व यहाँ से उत्तर दिशा की ओर टॉक फाटक पुलिया के सहारे सहारे टॉक रोड पर नेहरू बालउद्यान को शामिल करते हुए रामबाग सर्किल तक व यहाँ से पूर्व दिशा की ओर भवानी सिंह रोड पर चलते हुए जेडीए सर्किल तक व यहाँ से दक्षिण दिशा में जेएलएन मार्ग पर चलते हुए गांधी सर्किल तक। | 19569 |
| 99 | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र | 99 | गांधी सर्किल से उत्तर दिशा की ओर से मुख्य जेएलएन मार्ग की ओर चलते हुए जेडीए सर्किल से बिडला मंदिर के उत्तर पश्चिम कोने तक व यहाँ से गणेश मंदिर को शामिल करते हुए भामामार्ग तक तथा भामामार्ग से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए विजय पथ तिलक नगर तक का दाहिनी भाग का क्षेत्र तथा यहाँ से उत्तर की तरफ दिशा की तरफ चलते हुए दाहिनी तरफ तिलक नगर व गुरुनानक पुरा को शामिल करते हुए गोविन्द मार्ग तक तथा यहाँ से गोविन्द मार्ग तक होते हुए तथा यहाँ से गोविन्द मार्ग होते हुए बर्फ खाने चौराहे तक पूर्व दिशा की ओर मामा की होटल से दक्षिण पश्चिम दिशा के शांति पथ क्षेत्र को शामिल करते हुए सैक्टर 04 टूटी पुलिया से शांति पथ पर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए झालाना बाईपास से दक्षिण दिशा की ओर मुख्य झालाना बाईपास पर चलते हुए बाईजी की कोठी को छोड़ते हुए अरण्य भवन चौराहे तक तथा उत्तर की तरफ चलते हुए गांधी पथ पर चलते हुए दाहिनी भाग के क्षेत्र को शामिल करते हुए गांधी सर्किल तक। | 19097 |
| 100 | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र | 100 | जेडीए सर्किल से शुरू होकर पश्चिम दिशा की ओर भवानी सिंह रोड पर रामबाग सर्किल तक व यहाँ से दक्षिण दिशा में टॉक रोड पर नगर निगम ऑफिस को शामिल को करते हुए कैलाश टॉवर के कोने तक व यहाँ से पश्चिम दिशा में मुख्य सड़क पर विधानसभा दक्षिण पश्चिम कोने तक व यहाँ से उत्तर दिशा की ओर विधानसभा के उत्तर पश्चिम कोने तक व यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए विद्युत निगम भवन के दक्षिणी पश्चिम कोने तक व यहाँ से उत्तर दिशा में हुड़को कार्यालय को शामिल करते हुए | 17233 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|--|-------|
| | | | एलआईसी भवन तक व यहाँ से पूर्व दिशा में भवानी सिंह रोड पर अच्छेड़कर सर्किल तक व यहाँ से उत्तर दिशा में भगवानदास रोड होते हुए अशोक क्लब को शामिल करते हुए स्टेच्यू सर्किल होते हुए एम आई रोड पांच बत्ती चौराहे तक व यहाँ से पूर्व दिशा में एम आई रोड चलते हुए अजमेरी गेट होते हुए परकोटे का बाहरी हिस्सा लेते हुए सांगानेरी गेट तक (महिला चिकित्सालय) को शामिल करते हुए बॉम्बे मिष्टान भण्डार के कोने तक व यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर मोती ढूंगरी रोड होते हुए आनन्दपुरी रोड तक व यहाँ से पूर्व दिशा की ओर आचार्य कृपलानी मार्ग के कोने तक व यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए दाहिनी ओर के आनन्दपुरी के हिस्से को शामिल करते हुए गोविन्द मार्ग तक गोविन्द मार्ग से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए विजय पथ तक तथा यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए माहेश्वरी हायर सैकण्डरी स्कूल व बाल मंदिर स्कूल को शामिल करते हुए भामामार्ग के कोने तक तथा यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए गणेश मंदिर रोड तक तथा यहाँ से गणेश मंदिर के सहारे—सहारे गणेश मंदिर को छोड़ते हुए बिडला मंदिर के उत्तर पश्चिम कोने तक व यहाँ से जेएलएन मार्ग तक दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए इसके दाहिने हिस्से को शामिल करते हुए जेडीए सर्किल तक। | |
| 101 | आर्द्धश नगर विधान सभा क्षेत्र | 101 | सांगानेरीगेट से जौहरी बाजार मे उत्तर की तरफ चलकर पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए कोतवाली का रास्ते तक वहाँ से कोतवाली के रास्ते पर पूर्व की ओर चलकर दक्षिण हिस्से को शामिल करते हुए मनिराम के रास्ते तक वहाँ से मनिराम के रास्ते पर उत्तर की तरफ चलते हुए मोती सिंह भोमिया जी का रास्ते के चौराहे तक, वहाँ से मोती सिंह भोमिया के रास्ते पर पूर्वी तरफ चलकर दक्षिणी तरफ शामिल करते हुए खोरे वाली गली तक, वहाँ से खोरे वाली गली पर उत्तर की ओर चलते हुए पूर्वी हिस्सा शामिल करते हुए धी वाले के रास्ते के चौराहे तक, वहाँ से धी वाले के रास्ते चौराहे से घाटगेट बाजार तक वहाँ से दक्षिण की तरफ आगरा रोड तक आगरा रोड चौराहे से आगरा रोड पर पश्चिम ओर चलते हुए उत्तरी हिस्से को शामिल करते हुए सांगानेरी गेट तक। | 17764 |
| 102 | आर्द्धश नगर विधान सभा क्षेत्र | 102 | नगर निगम के फायर ऑफिस घाटगेट आगरा रोड से शुरू होकर पश्चिम दिशा मे चलकर दक्षिणी हिस्से को शामिल कर मिनर्वा सिनेमा के कोने तक वहाँ से मुड़कर दक्षिणी हिस्से की तरफ चलकर मोती ढूंगरी रोड पर पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए शमशान तिराहे तक वहाँ से पूर्व की ओर की ओर शमशान रोड पर चलकर उत्तरी हिस्से को शामिल करते हुए जाहगीर मार्ग तक वहाँ से उत्तर—पूर्व की ओर चलकर दुकान पौशाख तक वहाँ से उत्तर की ओर मुकित मार्ग पर चलकर पश्चिमी हिस्से को | 20223 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|--|-------|
| | | | शामिल करते हुए नगर निगम के फायर ऑफिस के पूर्वी हिस्से के कोने तक। | |
| 103 | आर्दश नगर विधान सभा क्षेत्र | 103 | महाकाल भैरव मंदिर शमशान रोड तिराहे से शुरू होकर पश्चिमी की ओर चलकर दक्षिणी हिस्से को शामिल करते हुए शमशान चौराहे तक वहाँ से मुक्ति मार्ग पर दुकान पोशाख के सामने स्थित मार्ग पर पश्चिम की ओर चलकर जाहगीर मार्ग होते हुए शमशान रोड तक पहुँचकर, शमशान रोड पर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर दक्षिणी हिस्से को शामिल करते हुए मोती ढूँगरी रोड तक वहाँ से आनन्दपुरी रोड पर पूर्व की ओर चलते हुए उत्तरी हिस्से को शामिल करते हुए आचार्य कृपलानी मार्ग के चाराहे तक वहाँ से आचार्य कृपलानी मार्ग पर दक्षिण की ओर चलकर पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए गोविन्द मार्ग तिराहे तक वहाँ से गोविन्द मार्ग पूर्व की ओर मुड़कर गोविन्द मार्ग पर चलते हुए गुरुद्वारे के सामने चौराहे तक वहाँ से उत्तर की ओर मुड़कर अशोक चौक वाले रास्ते हुते हुए पश्चिमी हिस्से को शामिल करते हुए सड़क के सहारे सहारे साधु वासवानी स्कूल के दक्षिणी कोने से होते हुए गीता भवन को शामिल करते हुए प्लाट नं. ए-68 तक ए-68 से पूर्व की ओर मुड़कर प्लाट नं. ए-23 तक वहाँ से उत्तर की ओर चलकर पश्चिमी हिस्से को शामिल करते हुए महाकाल भैरव मंदिर शमशान रोड तिराहे तक। | 17830 |
| 104 | आर्दश नगर विधान सभा क्षेत्र | 104 | सत्साई कॉलेज मार्ग प्लाट नं. ई-24 के सामने से शुरू कर पश्चिमी दिशा की ओर चलते हुए दक्षिणी हिस्से को शामिल करते हुए पागर खाना गोविन्द मार्ग के तिराहा तक पहुँचकर वहाँ से उत्तरी दिशा में चलते हुए गोविन्द मार्ग पर पश्चिमकी हिस्से को शामिल करते हुए अनुग्ञा पथ तिराहे तक। वहाँ से अनुग्ञा पथ पर पश्चिमी दिशा की ओर चलकर जनता सर्किल के दक्षिणी हिस्से को शामिल करते हुए महाकाल भैरव मंदिर के तिराहे तक वहा से दक्षिण की ओर चलते हुए पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए प्लाट नं. ए-23 तक वहाँ से पश्चिम की ओर मुड़कर मुक्ति मार्ग पर प्लाट नं. ए-68 तक वहाँ से मुक्ति मार्ग पर दक्षिण की ओर चलकर गीता भवन होते हुए गीता भवन को छोड़ते हुए एवं साधु वासवानी स्कूल व पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए स्कूल के कोने तक। वहाँ से दक्षिण की ओर चलकर गोविन्द मार्ग गुरु द्वारे के सामने पहुँचकर पूर्व की ओर गोविन्द मार्ग पर मुड़कर उत्तरी-पश्चिमी हिस्से को शामिल करते हुए बर्फ खाने चौराहे तक पहुँचकर पूर्व की ओर चलते हुए उत्तरी हिस्से को शामिल करते हुए मामा की होटल के चौराहे तक। वहाँ से उत्तर की ओर चलकर सिंधी कॉलोनी वाले हिस्से को शामिल करते हुए सिंधी कॉलोनी वाले हिस्से को शामिल करते हुए सत्साई मार्ग पर प्लाट नं. ई-24 के कोने तक। | 19488 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|--|-------|
| 105 | आर्दश नगर विधान सभा क्षेत्र | 105 | जवाहर नगर दिल्ली बाईपास से सत्साई मार्ग पर पश्चिम की ओर चलकर दक्षिणी हिस्से को शामिल करते हुए ई-24 तक पहुंचकर दक्षिणी की ओर चलकर सिंधी कॉलोनी को छोड़ते हुए पूर्व के हिस्से को शामिल करते हुए मामा की होटल के चाराहे तक वहाँ से दक्षिण की ओर जवाहर नगर नाले के सहारे सहारे चलकर पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए शांति पथ टूटी पुलिया नं. 3 तक। पुलिया नं. 3 से शांति पथ पर पूर्व के और चलते हुए टीला नं. 7 तीराहा तक पहुंचकर वहाँ से जवाहर नगर दिल्ली बाईपास पर उत्तर की ओर चलते हुए पश्चिम हिस्से को शामिल करते हुए जवाहर नगर बाईपास पर सत्साई कॉलेज के सामने के कोने तक। | 21042 |
| 106 | आर्दश नगर विधान सभा क्षेत्र | 106 | जवाहर नगर दिल्ली बाईपास पर स्थित मुकेश नगर टीला नं. 1 के सड़क से प्रारम्भ होकर दिल्ली बाईपास के सहारे सहारे दक्षिणी और चलते हुए पूर्वी हिस्से के टीला नं. 2, 3, 4, 5, 6 व 7 तक के आबादी को शामिल करते हुए टीला नं. 7 के तिराहे तक पहुंचकर पूर्वी दिशा में मुड़कर काल्पनिक रेखा के सहारे सहारे पूर्वी से उत्तर की ओर चलते हुए उत्तरी पश्चिमी हिस्से को शामिल करते हुए चूलगीरि की पहाड़ियों तक पहुंचकर नगर निगम क्षेत्र की काल्पनिक रेखा के सहारे सहारे पश्चिमी की ओर चलते हुए पहाड़ियों को क्रोस कर टिला नं. 1 मुकेश नगर जवाहर नगर दिल्ली बाईपास के कोने तक। | 22631 |
| 107 | आर्दश नगर विधान सभा क्षेत्र | 107 | आगरा रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से दक्षिण की ओर जवाहर नगर दिल्ली बाईपास रोड पर चलकर पूर्व का हिस्सा शामिल करते हुए टीला नं. 1 मुकेश नगर के सड़क तक वहाँ से पूर्व की ओर काल्पनिक रेखा पर चलकर उत्तरी हिस्से की समस्त आबादी को लेते हुए(समस्त मुकेश नगर को शामिल करते हुए) चूलगीरि की पहाड़ियों को क्रांस करते हुए नगर निगम की काल्पनिक रेखा के सहारे हरिसिंह बाबा मंदिर तक वहाँ से उत्तरी ओर चलकर पश्चिमी हिस्से को शामिल करते हुए नगर निगम की सीमा के सहारे सहारे आगरा रोड तक पहुंचकर वहाँ से पश्चिम की ओर मुड़कर दक्षिणी हिस्से की आबादी को लेते हुए आगरा रोड के सहारे सहारे गलता रोड (केशव विद्यापीठ रोड) तक, वहाँ से गलता रोड पर उत्तरी ओर चलकर हनुमान मन्दिर (हनुमान भोजनालय)तक, वहाँ से काल्पनिक रेखा पर पश्चिम दक्षिणी ओर चलकर सिसोदिया रानी का बाग व मच्छी दरवाजे को शामिल करते हुए आगरा रोड पर महादेव के मन्दिर तक, वहाँ से आगरा रोड के सहारे-सहारे दक्षिणी हिस्से को शामिल करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक। | 21991 |
| 108 | आर्दश नगर विधान सभा क्षेत्र | 108 | पुरानी आगरा रोड पर स्थित मन्दिर श्री महादेव जी से काल्पनिक रेखा पर उत्तर पूर्व चलकर उत्तरी हिस्से को शामिल करते हुए तथा मच्छी दरवाजा व सिसोदिया रानी का बाग को छोड़ते हुए गलता मार्ग | 20018 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|---|-------|
| | | | पर हनुमान मन्दिर (हनुमान भोजनालय) तक, वहां से गलता रोड (केशव विद्यापीठ रोड) पर दक्षिण की ओर चलकर आगरा रोड तक वहां से आगरा रोड के सहारे—सहारे सम्पूर्ण उत्तरी भाग को शामिल करते हुए पुरानी चुंगी पहुँचकर नगर निगम सीमा के सहारे उत्तर की ओर मुड़कर नगर निगम क्षेत्र के सहारे—सहारे जामडोली क्षेत्र व पश्चिमी भाग को लेते हुए नगर निगम सीमा के सहारे पश्चिम की ओर चलकर गलता रोड पर श्रीराम मंदिर से काल्पनिक रेखा पर दक्षिण की तरफ चलकर नाहरसिंह बाबा मंदिर को छोड़ते हुए पुरानी आगरा रोड महादेव जी के मन्दिर तक। | |
| 109 | आर्दश नगर विधान सभा क्षेत्र | 109 | दिल्ली बाईपास रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से प्रारम्भ कर पश्चिम की ओर घाटगेट आगरा रोड के सहारे चलते हुए दक्षिणी हिस्से की सेठी कॉलोनी, जनता कॉलोनी, बर्मिज कॉलोनी इत्यादि को शामिल करते हुए घाटगेट नगर निगम ऑफिस के पूर्व दिशा में स्थिति शुलभ कॉम्प्लेक्स के कोने तक वहाँ से मुक्ति मार्ग दक्षिणी दिशा की ओर चलते हुए शुलभ कॉम्प्लेक्स एवं पूर्वी हिस्से की आबादी को शामिल करते हुए शमशान चौराहे तक वहाँ से पूर्व की ओर चलते हुए आदर्श नगर शमशान रोड होते हुए उत्तरी हिस्से को शामिल करते हुए जनता सर्किल होते हुए अनुज्ञाय पथ गोविन्द मार्ग तिराहे तक वहाँ से दक्षिण की ओर चलकर पागल खाने के कोने को शामिल करते हुए पूर्व की ओर मुड़कर सतसाई मार्ग पर उत्तरी हिस्से को शामिल करते हुए जवाहर नगर बाईपास सतसाई कॉलेज बर्मिज कॉलोनी के कोने तक वहाँ से जवाहर नगर दिल्ली बाईपास पर उत्तरी हिस्से में चलकर पश्चिमी हिस्से को शामिल करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक। | 20266 |
| 110 | आर्दश नगर विधान सभा क्षेत्र | 110 | घाटगेट आगरा रोड चौराहे से घाटगेट बाजार में उत्तर की तरफ छप्पर बंधो के रास्ते तक वहाँ से छप्पर बंधो के रास्ते पर पूर्वी दिशा में चलकर दक्षिणी हिस्से को शामिल करते हुए मोडल स्कूल तक मोडल स्कूल से दक्षिण की ओर चलते हुए छप्पर बंधे रास्ते हुए परकोटा तक परकोटा के सहारे—सहारे पूर्व की ओर चलकर ए.आर.सी के गेट से ए.आर.सी ऐरिया को छोड़ते हुए ट्रान्सपोर्ट नगर व अमृतपुरी को शामिल करते हुए दिल्ली रोड तक, दिल्ली रोड प्राइवेट बस स्टेप्प द्वारा पूर्व की ओर चलते हुए गन्दे नाले के खड़डे होते हुए पहाड़ी तक पहाड़ी से काल्पनिक रेखा मानते हुए घाट की गुणी तक घाट की गुणी से ट्रान्सपोर्ट नगर चौराहे होते हुए उत्तरी हिस्से को शामिल करते हुए आगरा रोड घाटगेट चौराहे तक। | 22132 |
| 111 | आर्दश नगर विधान सभा क्षेत्र | 111 | घाटगेट बाजार खुमरो के रास्ते से मच्छी मार्केट होते हुए दक्षिण, पश्चिम हिस्सा शामिल करते हुए बुरान मजिल तक वहाँ से बुरान मजिल से उत्तरी दिशा में बाबू के टीले के रास्ते पर चलकर बालाजी के रास्ते | 23822 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|--|-------|
| | | | तक वहाँ से बालाजी के रास्ते से पूर्वी दिशा चलते हुए गंगा बक्से की गली के चौराहे से होते हुए दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा शामिल करते हुए पिंक सिटी हाउस शामिल करते हुए ठाकुर गिजगढ़ के रास्ते तक, वहाँ से ठाकुर गिजगढ़ से महादेव के नाले के पश्चिमी शामिल करते हुए बालजी जी की कोठी के रास्ते से होते हुए छप्पर बंधो के रास्ते तक तक वहाँ से पश्चिम की ओर छप्पर बंधो के रास्ते की पर चलकर घाटगेट बाजार तक वहाँ से घाटगेट बाजार से उतर की तरफ चल कर खुमरो के रास्ते तक। | |
| 112 | आर्दश नगर विधान सभा क्षेत्र | 112 | पहाड़गंज हिरा पब्लिक स्कूल से शहीद चौक बंजरा बस्ती होते हुए दक्षिणी हिस्सा को शामिल करते हुए गंगा बक्से की गली चौराहे तक वहाँ से गंगा बक्से की गली से दक्षिण की तरफ चलकर पिंक सिटी हाउस होते हुए पूर्वी हिस्सा शामिल करते हुए ठाकुर गीजगढ़ के रास्ते तक वहाँ से गीजगढ़ के रास्ते से पूर्व की तरफ चलकर महादेव का नाला होते हुए पूर्व हिस्से को शामिल करते हुए बालजी कोठी का रास्ता तक, बालजी के कोठी के रास्ते पर पूर्व दिशा में चलकर उतरी हिस्से को शामिल करते हुए परकोटे तक, परकोटे की लाईन पर चलते हुए हिरा पब्लिक स्कूल तक। | 24491 |
| 113 | आर्दश नगर विधान सभा क्षेत्र | 113 | आरएसी गेट से पश्चिमी तरफ बालजी की कोठी के रास्ते चलते हुए मोडल स्कूल का दक्षिणी भाग का क्षेत्र लेते हुए दक्षिणी तरफ का रास्ता छप्पर बंधान का रास्ते लेते हुए सिटी वाल तक यहाँ से पूर्व की ओर सिटीवाल के सहारे-सहारे अमृतपुरी ट्रान्सपोर्ट नगर को छोड़ते हुए दिल्ली रोड तक दिल्ली रोड उतर की तरफ चलकर गन्दे नाले तक गंदे नाले से सहारे-सहारे चलकर दक्षिणी व पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए चारदरवाजे तक, चारदरवाजे से मण्डी खटीकान रोड तक मण्डीखटीकान रोड पूर्व की तरफ चलते हुए विधान सभा क्षेत्र किशनपोल सीमा के सहारे सहारे चलते हुए लक्ष्मीनारायणपुरी को शामिल करते हुए प्लाट नं ए-56 तक यहाँ से दक्षिण की ओर चलते हुए लक्ष्मीनारायण जी का मन्दिर परिसर सम्पूर्ण हिस्सा, संजीवनी हॉस्पिटल शामिल करते हुए मन्दिर चौराहे तक, यहाँ से पूर्व की ओर उतर का हिस्सा शामिल करते हुए वन विभाग की चौकी मोहनबाड़ी जैन मन्दिर आनन्दबाड़ी देशभूषण नगर, गोर्वधनाथ जी का मन्दिर अनाज मण्डी जेडीए कर्वाटर शामिल करते हुए वापसी वन विभाग की चौकी सूरजपोल गेट तक सूरजपोल गेट से दक्षिण की ओर परकोटे के सहारे-सहारे पूर्व का समस्त हिस्सा शामिल करते हुए आरएसी गेट तक। | 17965 |
| 114 | आर्दश नगर विधान सभा क्षेत्र | 114 | दिल्ली रोड प्राईवेट बस स्टेप्प देव देव से उतरी हिस्से को शामिल करते हुए गन्दे नाले के गढ़े होते हुए पहाड़ी से काल्पनिक रेखा मानते हुए सूर्य मन्दिर को छोड़ते हुए गलता रोड तक गलता दरवाजा गलता | 17843 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|---|-------|
| | | | घाटी शामिल करते रथुनाथ कॉलोनी को शामिल हुए एवं सूर्य नगर व ऋषि गालव नगर को छोड़ते हुए दिल्ली रोड तक दिल्ली रोड से दक्षिणी दिशा की तरफ चलकर पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए पुराने बस स्टेप्ड तक। | |
| 115 | आर्दश नगर विधान सभा क्षेत्र | 115 | रामगंज चोपड से सूरजपोल बाजार में पूर्व की तरफ चलकर दक्षिणी हिस्से को शामिल करते हुए सुरज पोल गेट तक सुरज पोल गेट से परकोटे की दिवार के सहारे—सहारे पश्चमी हिस्से को शामिल करते हुए शहीद चौक रास्ते तक वहाँ से शहीद चौक से बंजारा बस्ती के रास्ते से होते हुए उतरी हिस्सा शामिल करते हुए बाबू के टीबे का रास्ते तक वहाँ से बाबू के टीबे के रास्ते पर दक्षिणी ओर चलकर बुरान मंजिल मच्छी मार्केट खुमरो के रास्ते तक वहाँ से खुमरो के रास्ते से उतरी हिस्सा व पूर्वी हिस्सा शामिल करते हुए घाटगेट बाजार तक वहाँ से घाटगेट बाजार में उत्तर की तरफ चलकर रामगंज चौपड तक। | 20524 |
| 116 | आर्दश नगर विधान सभा क्षेत्र | 116 | दिल्ली बाईपास रोड गलता दरवाजा से उत्तर की ओर दिल्ली रोड पर चलकर पूर्वी हिस्से लेते हुए बंगली बाबा के आश्रम तक वहाँ से बंगली बाबा के आश्रम से नगर निगम क्षेत्र की सीमा के सहारे सहारे उत्तर — पूर्व की ओर चलते हुए, खोले के हनुमान जी का दरबार कॉलोनी लालपोश शमशान ईदगाह लबलबी की कोठी सुन्दर नगर व शिव कॉलोनी का क्षेत्र शामिल करते हुए ऋषि गालव नगर तक वहाँ से गालव नगर व सूर्य नगर को शामिल करते हुए तथा रथुनाथ कॉलोनी को छोड़ते हुए गैस गोदाम सड़क के सहारे पश्चिम की ओर चलकर मीणा पेट्रोल पम्प व उत्तरी हिस्से को शामिल करते हुए दिल्ली रोड तक। | 25211 |
| 117 | किशनपोल विधान सभा क्षेत्र | 117 | कब्रिस्तान से पूर्व में मण्डी खटिकान रोड पर चलते हुए दिल्ली रोड तक, यहाँ से दक्षिण में दिल्ली—बाई—पास रोड पर होते हुए भोलाराम कोयले गाले के मकान तक, यहाँ से पश्चिम में मकान नं ए—५६ तक, यहाँ से दक्षिण में चलते हुए लक्ष्मीनारायण मंदिर तक, यहाँ से दक्षिण—पूर्व में चलते हुए सुरजपोल गेट तक, यहाँ से पश्चिम में सुरजपोल बाजार रोड में चलते हुए हीदा की मोरी तक, यहाँ से उत्तर—पूर्व में हीदा की मोरी रोड पर चलते हुए गांधी सर्किल तक, यहाँ से उत्तर में चार—दरवाजा रोड में चलते हुए कब्रिस्तान मण्डी खटिकान रोड तक। | 18050 |
| 118 | किशनपोल विधान सभा क्षेत्र | 118 | कब्रिस्तान मण्डी खटीकान से दक्षिण में चलते हुए गांधी सर्किल तक, गांधी सर्किल से दक्षिण में हीदा की मोरी सड़क पर चलते हुए सुरजपोल बाजार रोड तक, यहाँ से पश्चिम में सुरजपोल बाजार रोड में चलते हुए रामगंज चौपड तक, यहाँ से दक्षिण में घाटगेट बाजार में चलते हुए कीरों की गली तक, यहाँ से पश्चिम में कीरों की गली एवं लाला | 21538 |

| | | | | |
|-----|---------------------------|-----|--|-------|
| | | | कोचवान की गली में चलते हुए मेहरो के रास्ते तक, यहां से उत्तर में मेहरो की रास्ते में चलते हुए रामगंज बाजार तक, यहां से पूर्व में रामगंज बाजार में चलते हुए जगन्नाथशाह के रास्ते के नुकड़ तक, यहां से उत्तर में जगन्नाथशाह के रास्ते में चलते हुए मोती कटला बाजार तक, यहां से पूर्व में मोती कटला बाजार रोड में चलते हुए चार दरवाजा बाहर होते हुए कब्रिस्तान मण्डी खटिकान रोड तक। | |
| 119 | किशनपोल विधान सभा क्षेत्र | 119 | सुभाष चौक सर्किल से पूर्व में मोती कटला बाजार में चलते हुए जगन्नाथ शाह के रास्ते तक, यहां से दक्षिण में जगन्नाथ शाह के रास्ते में चलते हुए रामगंज बाजार रोड तक, यहां से पश्चिम में रामगंज बाजार रोड में चलते हुए फुटा खुर्रा के रास्ते में चलते हुए खवास जी के रास्ते तक, यहां से उत्तर में फुटा खुर्रा के रास्ते में चलते हुए खवास जी के रास्ते में चलते हुए चाणकय मार्ग तक, यहां से उत्तर में चाणकय मार्ग में चलते हुए सुभाष चौक सर्किल तक। | 18533 |
| 120 | किशनपोल विधान सभा क्षेत्र | 120 | मोती कटला बाजार में सुभाष चौक सर्किल से दक्षिण में चाणकय मार्ग में चलते हुए खवास जी के रास्ते तक, यहां से पूर्व में खावास जी के रास्ते में चलते हुए फुटा खुर्रा के रास्ते तक, यहां से दक्षिण में फुटा खुर्रा के रास्ते में चलते हुए रामगंज बाजार रोड तक, यहां से पश्चिम में रामगंज बाजार रोड में चलते हुए बड़ी चौपड़ तक, यहां से उत्तर में सिरहड्योडी गेट से होते हुए मोती कटला बाजार रोड तक, यहां से पूर्व में मोती कटला बाजार रोड पर चलते हुए सुभाष चौक सर्किल तक। | 21956 |
| 121 | किशनपोल विधान सभा क्षेत्र | 121 | घाटगेट बाजार रोड पर स्थित किरों की गली से दक्षिण में घाट गेट बाजार रोड में चलते हुए लुहारों के खुरे के रास्ते तक, यहां से पश्चिम में लुहारों के खुरे के रास्ते में चलते हुए चैवरी बरदार बाग के रास्ते तक, यहां से दक्षिण में चैवरी बरदार के रास्ते में चलते हुए एम.एस.बी के रास्ते तक, यहां से पश्चिम में एम.एस.बी के रास्ते में चलते हुए मनीराम जी की कोठी के रास्ते तक, यहां से दक्षिण में मनीराम जी की कोठी के रास्ते में चलते हुए पुरानी कोतवाली के रास्ते तक, यहां पश्चिम में पुरानी कोतवाली के रास्ते में चलते हुए जौहरी बाजार रोड तक, यहां से उत्तर में जौहरी बाजार रोड में चलते हुए बड़ी चौपड़ तक, यहां से पूर्व दिशा में रामगंज बाजार रोड में चलते हुए मेहरों के रास्ते में चलते हुए लाला कोचवान की गली तक यहां से पूर्व में लाला कोचवान की गली एवं कीरो की गली में चलते हुए घाटगेट बाजार तक। | 18730 |
| 122 | किशनपोल विधान सभा क्षेत्र | 122 | बड़ी चौपड़ से दक्षिण में जौहरी बाजार रोड में चलते हुए सांगानेरी गेट तक, यहां से पश्चिम में परकोटे की दिवार के सहारे-सहारे चलते हुए न्यू गेट होते हुए नेहरू बाजार में मनीहारों के रास्ते तक, यहां से उत्तर | 21102 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|-----|---|-------|
| | | | में मनीहारों के रास्ते में चलते हुए त्रिपोलिया बाजार रोड तक, यहां से पूर्व में त्रिपोलिया बाजार रोड में चलते हुए बड़ी चौपड़ तक। | |
| 123 | किशनपोल विधान सभा क्षेत्र | 123 | त्रिपोलिया बाजार रोड से दक्षिण में मनीहारों के रास्ते में चलते हुए नेहरू बाजार रोड तक, यहां से पश्चिम में परकोटा दिवार के सहारे—सहारे चलते हुए अजमेरी गेट होते हुए परकोटे के बाहर एम.आई रोड पर पश्चिम में चलते हुए पांच बत्ती तक, यहां से उत्तर में न्यू कॉलोनी रोड पर चलते हुए इन्द्रिया बाजार रोड तक, यहां से पूर्व में इन्द्रिया बाजार रोड पर चलते हुए तहविल दारों के रास्ते तक, यहां से उत्तर में तहविल दारों के रास्ते में चलते हुए चांदपोल बाजार रोड तक, यहां से पूर्व में चांदपोल बाजार रोड में चलते हुए छोटी चौपड़ होते हुए त्रिपोलिया बाजार में मनीहारों के रास्ते तक। | 17505 |
| 124 | किशनपोल विधान सभा क्षेत्र | 124 | चांदपोल बाजार रोड से दक्षिण में तहविल दारों के रास्ते में चलते हुए इन्द्रिया बाजार तक, यहां से पश्चिम में इन्द्रिया बाजार में चलते हुए कल्याण जी के रास्ते तक, यहां से उत्तर में कल्याण जी के रास्ते में चलते हुए टिक्कडमल के रास्ते तक, यहां से पूर्व में टिक्कडमल के रास्ते में चलते हुए भिडों के रास्ते तक, यहां से उत्तर में भिडों के रास्ते में चलते हुए चांदपोल बाजार रोड तक, यहां से पूर्व में चांदपोल बाजार रोड में चलते हुए तहविल दारों के रास्ते तक। | 20280 |
| 125 | किशनपोल विधान सभा क्षेत्र | 125 | न्यू कॉलोनी रोड से पश्चिम में परकोटा दिवार के सहारे—सहारे चलते हुए गौड़ विप्र विद्यालय के पास स्थित बुर्ज तक, यहां से उत्तर में परकोटे के सहारे—सहारे चलते हुए चांदपोल गेट तक, यहां से पूर्व में चांदपोल बाजार रोड पर चलते हुए भिडों के रास्ते तक, यहां से दक्षिण में भिडों के रास्तों में चलते हुए टिक्कडमल के रास्ते तक, यहां से पश्चिम में टिक्कडमल के रास्ते में चलते हुए कल्याण जी के रास्ते तक, यहां से दक्षिण में कल्याण जी रास्ते में चलते हुए न्यू कॉलोनी रोड पर स्थित परकोटा दिवार तक। | 17828 |
| 126 | किशनपोल विधान सभा क्षेत्र | 126 | चांदपोल दरवाजा बाहर से दक्षिण में परकोटा दिवार के सहारे—सहारे चलते हुए गौड़ विप्र विद्यालय के पास स्थित बुर्ज तक, यहां से पूर्व में परकोटा दिवार के सहारे—सहारे चलते हुए न्यू कॉलानी रोड तक, यहां से दक्षिण की तरफ चलते हुए पांच बत्ती चौराहे तक, यहां से पश्चिम में एम.आई रोड पर चलते हुए खासा कोठी चौराहे तक, यहां से उत्तर—पूर्व में रेलवे स्टेशन रोड पर चलते हुए शर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स तक यहां से पूर्व में लोहा मंडी रोड पर चलते हुए संसारचन्द रोड तक यहां से उत्तर—पूर्व में संसारचन्द रोड पर चलते हुए संजय सर्किल तक यहां से पूर्व में चांदपोल गेट तक। | 19434 |
| 127 | किशनपोल विधान सभा | 127 | नाहरी नाका रोड पर पानी की टंकी से दक्षिण—पूर्व में नाहरी नाका रोड पर चलते हुए फास्ट फूड क्रॉनर | |

| | | | | |
|-----|---------------------------|-----|--|-------|
| | क्षेत्र | | तक, यहां से पूर्व में न्यू ताज बेकरी तक, यहां से दक्षिण-पूर्व में सरोज टाकीज रोड में चलते हुए सरोज टाकीज को छोड़ते हुए राज मेडिकल तीराहे से होते हुए संजय सर्किल तक, यहां से दक्षिण में संसारचन्द रोड पर चलते हुए बगड़िया सदन तक, यहां से पश्चिम में लोहा मंडी रोड होते हुए शर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स स्टेशन रोड तक, यहां से उत्तर-पूर्व में संजय सर्किल, जनाना अस्पताल क्रॉनर तक, यहां से पश्चिम में झोटवाडा रोड पर चलते हुए पीतल फेकट्री चोराहे तक, यहां से उत्तर में शास्त्री नगर रोड पर चलते हुए पानी की टंकी तक। | 17729 |
| 128 | किशनपोल विधान सभा क्षेत्र | 128 | नाहरी का नाका रोड पर स्थित मकान नं. 102 बक्षीराम नेता जी का मकान से पूर्व में बाबा रामदेव मार्ग पर चलते हुए मदीना मस्जिद तक, यहां से दक्षिण में माउण्ट रोड पर चलते हुए शीतल निवास तक, यहां से पूर्व में माउण्ट रोड पर चलते हुए हनुमान मंदिर तक, यहां से दक्षिण में माउण्ट रोड पर चलते हुए फूटाकोट भैरूजी मंदिर तक, यहां से उत्तर-पूर्व में माउण्ट रोड पर चलते हुए लंगर के बालाजी के रास्ते में रिथित बगरु वालों के रास्ते के नुकड़ तक, यहां से दक्षिण में बगरु वालों के रास्ते में चलते हुए राजा शिवदास जी के रास्ते तक, यहां से पश्चिम में राजा शिवदास जी के रास्ते में चलते हुए परकोटे के बाहर तक यहां से दक्षिण में परकोटे के सहारे सहारे चलते हुए चांदपोल दरवाजे तक, यहां से पश्चिम-उत्तर में सरोज टाकीज तीराहा राज मेडिकल होते हुए न्यू ताज बेकरी तक, यहां से पश्चिम में फास्ट फूड क्रॉनर तक, यहां से उत्तर-पश्चिम में नाहरी का नाका रोड पर चलते हुए मकान नं. 102 बक्षीराम नेताजी के मकान तक। | 22482 |
| 129 | किशनपोल विधान सभा क्षेत्र | 129 | छोटी चौपड़ से पश्चिम में चांदपोल बाजार रोड में चलते हुए चांदपोल हनुमान मन्दिर के पास परकोटा दिवार तक, यहां से उत्तर में परकोटे के सहारे-सहारे चलते हुए राजा शिवदास जी रास्ते तक, यहां से पूर्व में राजा शिवदासजी के रास्ते में चलते हुए जाट के कुंए के रास्ते तक, यहां से उत्तर में जाट के कुंए के रास्ते में चलते हुए शैलों की गली तक, यहां से पूर्व में शैलों की गली में चलते हुए नाहर गढ़ के रास्ते तक, यहां से दक्षिण में नाहरगढ़ के रास्ते में चलते हुए बारह भाईयों के चौराहे तक, यहां से पूर्व में राजा शिवदास जी के रास्ते में चलते हुए गणगौरी बाजार रोड तक, यहां से दक्षिण में गणगौरी बाजार रोड पर चलते हुए छोटी चौपड़ तक। | 20368 |
| 130 | किशनपोल विधान सभा क्षेत्र | 130 | राजा शिव दास के रास्ते से उत्तर दिशा में बगरु वालों के रास्ते में चलते हुए लगर के बालाजी के रास्ते तक, यहां से पश्चिम दिशा में लंगर के बालाजी के रास्ते में चलते हुए उनियाराओं के रास्ते के नुकड़ तक, यहां से उत्तर में परकोटे की दिवार के साहरे-सहारे चलते हुए नाहरगढ़ पाहड़ी की तलहटी | 20701 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|-----|--|-------|
| | | | में माउन्ट रोड पर चलते हुए हरिजन बस्ती तक, यहां से दक्षिण में नाहरगढ़ के रास्ते में चलते हुए शैलों की गली तक, यहां से पश्चिम में शैलों की गली में चलते हुए जाट के कुएं के रास्ते तक, यहां से दक्षिण में जाट के कुएं के रास्ते में चलते हुए राजा शिवदास जी के रास्ते तक, यहां से पश्चिम में राजा शिवदास जी के रास्ते में चलते हुए बगरु वालों के रास्ते तक। | |
| 131 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 131 | प्लाट नं. 2 छ: 2 से पश्चिम की ओर लंकापुरी, विजय नगर भौमिया जी का मन्दिर, राजीव नगर को शामिल कर श्रीराम टीला तक व वहाँ से उत्तर की ओर अमानीशाह नाला को शामिल करते हुए कच्ची बस्ती, हरीजन बस्ती, आनन्दी लाल टीबा का शामिल कर काल्पनिक रेखा पहाड़ी की ओर नगर निगम क्षेत्र तक। व यहां से काल्पनिक रेखा दक्षिण की तरफ साहिद मस्जिद रोड के पश्चिम की तरफ का हिस्सा लेते हुए बाबा चिकन बिरयानी से मदीना होटल तक व यहां से खण्डेला ज्वेलर्स होते हुए प्लाट नं. 2छ: 2 तक। | 19826 |
| 132 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 132 | जलदाय विभाग से भट्टा बस्ती, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक को शामिल कर, भट्टा बस्ती पुलिस थाने के सामने तक। व यहां से उत्तर पूर्व की ओर खण्डेला ज्वेलर्स होते हुए काल्पनिक रेखा द्वारा नगर निगम की सीमा तक, यहां से पूर्व व दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखा नगर निगम की सीमा भट्टा बस्ती कब्रिस्तान तक, यहां से पुनः उत्तर पश्चिम का सम्पूर्ण भाग लेते हुए जलदाय विभाग तक। | 23728 |
| 133 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 133 | प्लाट नं. पी-127 के सामने प्लार्ट नं. पी.-1 को शामिल कर उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए पानी की टंकी के सामने इन्द्रा कॉलोनी, पटेल नगर, वर्मा कॉलोनी, को शामिल करते हुए रामेश्वर वकिल के मकान तक। एवं यहाँ से उत्तर की तरफ धनजी पान वाले तक सुभाष कॉलोनी, ललिता शास्त्री नगर को शामिल करते हुए पी.एण्ड.टी. कॉलोनी की तरफ खण्डेलवाल महाविद्यालय की ओर से उत्तर पूर्व की ओर जलदाय विभाग के सामने का सम्पूर्ण शिवशवित कॉलोनी ब्लॉक A व E को शामिल कर सेक्टर-5 को लेते हुए पूर्व की ओर मुख्य चौड़ी सड़क पर सेक्टर 6 की तरफ हंसराज पान वाला चौराहे से होकर दक्षिण की तरफ से सुभाष कॉलोनी की ओर एवं यहां से दक्षिण पूर्व की तरफ शिवानी किएयशन तक। व यहां से दक्षिण तरफ पुनः गन्दे नाले के सहारे प्लाट नं. पी-127 के सामने तक वर्मा कॉलोनी इन्द्रा कॉलोनी व उण्डा महादेव को शामिल करते हुये | 22812 |
| 134 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 134 | शिवानी किएयशन से पुरानी बस्ती मार्ग पर विश्वकर्मा कॉलोनी, टाटा नगर को शामिल करते झुलेलाल मन्दिर के सामने बी.एस.एन.एल. कार्यालय व हंसराज पान वाले चौराहे होते हुये रतन जी मूर्तिकार दुकान नं. 360 को शामिल कर जलदाय विभाग के सामने | 18926 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|-----|---|-------|
| | | | के क्षेत्र को शामिल करते हुए भटटा बस्ती कब्रिस्तान तक। वहाँ से काल्पनिक रेखा पहाड़ी की तरफ नगर निगम सीमा पुनः फोरेस्ट चौकी से पश्चिम की तरफ नगर निगम की सीमा की काल्पनिक रेखा से कच्ची बस्ती, हरिजन बस्ती, पशुपत्तिनाथ कॉलोनी को शामिल करके से नेहरू ज्ञान मन्दिर के सामने से बड़े गन्दे नाले तक। गन्दे नाले से शंकर मीणा के मकान से हरीजन बस्ती व पशुपत्तिनाथ कॉलोनी को शामिल कर पश्चिम की ओर शिवानी कियशन तक। | |
| 135 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 135 | नाहरी का नाका पुलिया पर ईस्माइल हुसैन मंजिल प्लाट नं. पी-127 को शामिल कर उत्तर पूर्व की ओर दाहिनी तरफ गन्दे नाले की ओर व्यास कॉलोनी, मीणा बस्ती, साद का टीबा, तेलीपाडा व पर्वतीय कॉलोनी को शामिल करते हुए उत्तर की ओर काल्पनिक रेखा द्वारा नगर निगम सीमा तक। व पुनः पूर्व की ओर पहाड़ी की काल्पनिक रेखा से दक्षिण पश्चिम में मेहन्दीपुर बालाजी की तरफ जाते हुए मक्का मस्जिद रोड से विजय चौक, बरकती मस्जिद, राणा कॉलोनी को शामिल कर मदीना मस्जिद पश्चिम की और उस्मान भाई के सामने का हिस्सा लेते हुये शेर अली फैन्सी स्टोर तक। (मुस्तान कुल्फी मण्डार के सामने का भाग) यहाँ से पश्चिम की ओर से बलाई बस्ती को शामिल कर नाहरीका नाका रोड पर पुलिया ईस्माइल हुसैन मंजिल प्लाट नं. पी-127 तक। | 21394 |
| 136 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 136 | मदीना होटल मुजाहीदीन कम्प्यूटर एवं मोबाईल शॉप से उत्तर की ओर चन्द्रशेखर की बगीची गांधी कॉलोनी को शामिल करते हुये मस्तान कुल्फी भण्डार को शामिल करते हुये उत्तर की ओर मदीना रोड पर नुसरत गोटा स्टोर को शामिल कर कुल्लु भाई नामेद की गली से नाले की ओर उस्मान भाई के मकान को शामिल कर पुनः नाले के सहारे उत्तर की ओर बढ़ते हुये मदीना रोड पर आशिक बन्धा, बस्ती टीबा बस्ती, मक्का मस्जिद के सामने का सम्पूर्ण एरिया शामिल करते हुए उत्तर की तरफ चलते हुए नगर निगम के पार्क को शामिल कर जाकिर भाई के मकान तक व आगे उत्तर की ओर काल्पनिक रेखा नगर निगम की पहाड़ी में पुनः नीचे दक्षिण की तरफ सम्पूर्ण मीणा पाडा शामिल कर माउण्ट रोड तक पुनः बाईपास होते हुये कच्ची बस्ती को शामिल कर मस्ताना कुल्फी मुजाहीदीन कम्प्यूटर एवं मोबाईल शॉप तक। | 15751 |
| 137 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 137 | नाहरगढ़ पुलिस थाने के सामने से उत्तर से हरीजन बस्ती, मोहन नगर, चौथ माता की बगीची को शामिल करते हुए, माउन्ट रोड तक, व यहाँ से काल्पनिक रेखा उत्तर की ओर नगर निगम की सीमा तक, यहाँ से पूर्व की ओर जाती हुई काल्पनिक रेखा से दक्षिण की तरफ, गेटोर की छतरियों तक गढ़-गणेश मन्दिर को शामिल करते हुए। यहाँ से गेटोर रोड होते हुए पुरोहित पाडा, | 18774 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|-----|--|-------|
| | | | गुरुगोविन्द सिंह कॉलोनी, गांधी कॉलोनी, पठानों का चौक शामिल करते हुए ब्रह्मपुरी रोड से मोहन नगर को शामिल करते हुए लंगर के बालाजी वाली रोड के पश्चिम की तरफ के सम्पूर्ण हिस्से को शामिल करते हुए नाहरगढ़ पुलिस थाने तक। | |
| 138 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 138 | छोटी चौपडी जयपुर मेडिकल हॉल से शुरू होकर त्रिपोलिया गेट होते हुए बड़ी चौपड़ के गणेश के मन्दिर तक व यहां से उत्तर की ओर सिहंगडोडी गेट हवामहल को शामिल करते हुए काले हनुमान मन्दिर के दक्षिण से बने गेट स पहले गुलराज मार्ग से होते हुए पश्चिम को क्षेत्र शामिल कर गोविन्द देव मार्ग तक व यहां से नाले के सहारे— सहारे, ताल कटोरा रोड से पौष्ट्रिक पार्क तक, पौष्ट्रिक उद्यान से उत्तर की ओर छोटी रोड राधा मार्ग से ब्रह्मपुरी रोड तक व ब्रह्मपुरी रोड के दक्षिण पश्चिम का हिस्सा राजहंस कॉलोनी, बलवंत व्यायामशाला, चेलों का मोहल्ला, श्री जी की मोरी लेते हुए लंगर के बालाजी के कोने तक। व यहां से पश्चिम की ओर नाहरगढ़ पुलिस थाना होते हुए बारह भाईयों का चौराहा होते हुए चौगान चौराहे तक व यहां से दक्षिण तरफ छोटी चौपड़ की रोड जयपुर मेडिकल हॉल तक। | 19047 |
| 139 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 139 | पुराने आमेर रोड पर अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर से काले हनुमान मन्दिर के उत्तरी हिस्से को शामिल करते हुए कंवर नगर परिषद कॉलोनी को शामिल कर ताल कटोरे मार्ग से पौष्ट्रिक पार्क होते हुए ब्रह्मपुरी की तरफ से पूर्व की ओर का हिस्सा, सीताराम बाजार, गया गुरु की गली , आदि को शामिल कर गेटोर रोड से माउण्ट रोड तक व वहां से काल्पनिक रेखा उत्तर की ओर नगर निगम क्षेत्र से होते हुए पूर्व की ओर से दक्षिण की ओर नहर गणेश राम मन्दिर को शामिल कर माउण्ट रोड तक, यहां से मंगला मार्ग होते हुए सम्राट गेट तक। व यहां से ब्रह्मपुरी रोड होते हुए संतोष सागार कॉलोनी को शामिल कर आमेर रोड एच.पी. पेट्रोल पम्प के सामने तक व यहां से दक्षिण में चलते हुए राष्ट्रिय आयुर्वेद संस्थान, हरीजन बस्ती राम का घेर शामिल करते हुए पुरानी आमेर रोड के कोने पर अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल तक। | 20438 |
| 140 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 140 | मोतीकटला बाजार पुराने आमेर रोड से शुरू होकर पूर्व की ओर चलते हुए चार दरवाजा तक, यहां से उत्तर में परकोटे के साथ—साथ गंगापोल गेट तक, यहां से पश्चिम से परकोटे के साथ साथ एच.पी. पट्टोल पम्प दक्षिण के हिस्से को शामिल कर आमेर रोड तक, यहां से दक्षिण में चलते हुये पुराने आमेर रोड मोती कटला बाजार तक। | 22788 |
| 141 | हवामहल | 141 | चार दरवाजा बाबू भाई ईंट वाला से पूर्व की ओर | 18885 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|-----|---|-------|
| | विधान सभा क्षेत्र | | मन्सूरी फैन्सी स्टोर तक आगे बास की पुलिया से मौलाना साहद की पुलिया तक व आगे में मौहल्लाडाकोतान को शामिल पर दिल्ली बाईपास रोड पर पुलिया नं. 2 तक यहां से उत्तर दिशा में दिल्ली बाई पास रोड करोली गली के सामने तक यहां से पश्चिम में फिरोज बैकरी से होते हुये रेवडी की कोठी को शामिल कर राजा टेन्ट हाऊस से हैकर साजिद भाई का मकान के सामने रहीम नगर इमाम चौक को शामिल कर कर मोरी रोड के सामने तक व यहां से दक्षिण की ओर सैयद कॉलोनी शोकतशाह कॉलोनी साबिर कॉलोनी द्वितीय को शामिल कर चार दरवाजा बाबू बाई इट वाला तक। | |
| 142 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 142 | मोरी रोड सैयद कॉलोनी मंजुर बैग का मकान को शामिल करते हुये पूर्व की ओर इमाम चौक नई पुलिया से साजिद भाई के मकान को शामिल कर राजा टेन्ट हाऊस तक व यहां से दक्षिण में फिरोज बैकरी तक आगे पंचरंग पट्टी मो इच्छावता को शामिल कर करोली गली गौसिया मस्जिद दिल्ली बाई पास रोड तक वहां से उत्तर की ओर लाल मस्जिद रोड लिम्बा ट्रेडर्स तक आगे यहां से पश्चिम की ओर बिल्लोचान्द व कल्लनशाह कॉलोनी को शामिल कर आगे बदनपुरा पुलिया तक आगे उत्तर दिशा में दशरथ कोटी रोड पर ट्राईगल ग्रेज्यूशन कलासेस को शामिल कर दक्षिण की ओर पूर्व का हिस्सा लेते हुये जयपुर डेयरी 2252 को शामिल कर बास्को हाऊस की मोरी तक व यहां से पूर्व की ओर गंगापोल गेट तक व आगे चार दिवारी के साथ—साथ बाहरी हिस्सा महरा बस्ती साबिर कॉलोनी चौधरी कॉलोनी लेते हुये मोरी रोड सैयद कॉलोनी मंजुर बैग तक। | 19864 |
| 143 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 143 | लाल मस्जिद रोड लिम्बा ट्रेडर्स के सामने दिल्ली बाई पास से बंगाली बाबा के सामने के तिराहे तक यहां से आगे काल्पनिक रेखा उत्तर दिशा में नगर निगम की सीमा तक आगे पश्चिम में काल्पनिक रेखा जलमहल की सीमा को लेते हुये एयर फार्स स्टेशन के सामने तक यहां से दक्षिण की ओर रामगढ़ मोड चौराहे तक व पुनः आगे पूर्व की ओर चलते हुये हजरत अली बी.बी. फातिमा कॉलोनी को शामिल कर शंकर नगर रोड तक यहां में दक्षिण में चलते हुये पूर्व का हिस्सा कृष्णपुरी मेहरा बस्सी आनन्द कॉलोनी दरवेश नगर फकीरो का टीबा शामिल कर बाबा फुडस तक व आगे पूर्व की ओर शेखर कॉलोनी गोणेश कॉलोनी मीणा कॉलोनी को शामिल कर बदन पुरा पुलिया तक यहां से पूर्व में चलते हुये मुरली मनोहर जी के मन्दिर को शामिल कर लाल मस्जिद रोड लिम्बा ट्रेडर्स के सामने तक। | 23569 |
| 144 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 144 | दिल्ली बाईपास नायला रोड आनन्दपुरी सिंगोदिया ट्रेडिंग कम्पनी के सामने से नायला रोड होते हुये नायला रोड के दक्षिणी भाग को लेते हुये नगर | 16458 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|-----|--|-------|
| | | | निगम सीमा तक, यहा से दक्षिण पश्चिम की ओर नदा की ढाणी, नाथू की ढाणी, जाटो का बास, राम नगर इत्यादी को शामिल करते हुये नगर निगम की सीमा के साथ वहां से बन्ध की घाटी तक यहा से उत्तर की ओर चलते हुये दिल्ली बाईपास नायला रोड आनन्दपुरी सिंगोदिया ट्रेडिंग कम्पनी के सामने तक। | |
| 145 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 145 | दिल्ली बाईपास बन्ध घाटी मानकपुरी कॉलोनी को शामिल कर नायला रोड मानबाग से पूर्व की ओर चलते हुये नायला का उत्तरी भाग लेते हुये विजय कॉलोनी फकीरों की ढाणी, घावडा की ढाणी इत्यादि को शामिल करते हुये नगर निगम की सीमा तक, यहां से उत्तर पश्चिम की ओर चलते हुये दिल्ली बाईपास मानपुर सड़वा मोड तक, यहा से पश्चिम की ओर फिर दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखा द्वारा रामगढ़ रोड दिल्ली बाईपास रोड तक यहा से पूर्व उत्तर की ओर पहाड़ी क्षेत्र में नीचे होते हुए दिल्ली बाईपास बघ की घाटी होते हुये मान बाग दिल्ली बाईपास तक। | 15709 |
| 146 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 146 | एच.पी. पैट्रोल पम्प को शामिल कर पश्चिम दिशा में ब्रह्मपुरी रोड पर शंकर नगर नाले के सहारे सहारे पूर्वी हिस्से गणेश कॉलोनी गोविन्द नगर पश्चिम आदि को शामिल करके आगे बाईपास माउन्ट रोड पूलिया तक यहां से पूर्व की ओर रामगढ़ चौराहे से खण्डेलवाल ढाबा व नगर निगम कॉलोनी को शामिल कर कर्बला चौराहे सब्जी बालों की दुकान तक यहां से दक्षिण की तरफ शंकर नगर रोड पर गोविन्दपुरी शंकर नगर शामिल करते हुये तिराहे पर बाबा फुड़स तक जहां से द्राइगल ग्रेज्यूट कल्लासेस से के सामने से गोविन्द नगर पूर्व का हिस्सा शामिल कर सम्पर्ण पश्चिम हिस्सा को शोमिल कर बास्को की मोरी तक यहां से परकोटे के साथ—साथ कोली बस्ती को शामिल कर एच.पी. पैट्रोल पम्प तक। | 22262 |
| 147 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 147 | ब्रह्मपुरी रोड मंगोड़ी बालों की बगीची से शंकर नगर नाला के पश्चिम क्षेत्र को शामिल कर उत्तर की तरफ माउन्ट रोड तक, यहां से वैष्णो देवी मन्दिर रोड से कागदीवाडा शमशान तक व वहां से उत्तर की ओर कागदीवाडा बस्ती को शामिल कर उत्तर की ओर काल्पनिक रेखा नगर निगम की सीमा तक यहा से दक्षिण की तरफ काल्पनिक रेखा नगर निगम क्षेत्र से माउन्ट रोड तक व यहां से लक्ष्मी नगर कृष्णा नगर श्याम कॉलोनी शामिल कर सम्राट गेट तक, यहां से पूर्व में ब्रह्मपुरी रोड पर मंगोड़ी बालों की बगीची तक। | 15977 |
| 148 | हवामहल विधान सभा क्षेत्र | 148 | एयरफोर्स स्टेशन आमेर रोड से दक्षिण की तरफ आते हुये पुलिस लाईन परसरामपुरा, इन्दिरा कॉलोनी, राजीवपुरी जगदीश कॉलोनी को शामिल कर रामगढ़ चौराहे तक, यहा से पश्चिम की ओर माउन्ट रोड श्री सिद्धी विनायक स्टोर तक यहा से उत्तर की ओर पूर्व के हिस्से को शामिल कर | 18853 |

| | | | | |
|-----|------------------------|-----|--|---------|
| | | | काल्पनिक रेखा नगर निगम पहाड़ी तक व यहां से काल्पनिक रेखा नगर निगम क्षेत्र से गुर्जर घाटी को शामिल कर एयर फोर्स स्टेशन तक। | |
| 149 | आमेर विधान सभा क्षेत्र | 149 | जयपुर गोल्डन पैट्रोल पम्प के ठीक सामने पावर हाउस स्थित है जिसके सामने मुख्य दिल्ली बाईपास रोड है, दिल्ली बाईपास रोड के सामने अर्थात् पूर्वी तरफ पुराने वार्ड की डोटेड काल्पनिक रेखा वाली सीमा में पावर हाउस स्टेशन से दक्षिण की तरफ चलते हुये शिव कुण्डा की तलाई व श्याम ढूंगरी को शामिल करते हुये पीली की तलाई व अन्य ढाणीयों को शामिल करते हुये जाजौलाई की तलाई तक से टप्टा का चौराहे से फरासावाली ढाणी होते हुये, भाटावाली की ढाणी को शामिल करते हुये, बड़ी का बास, जमवारामगढ़ रोड तक, व जमवारामगढ़ रोड से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुये सड़वा मोड तिराहे तक सड़वा मोड तिराहे से उत्तरी तरफ दिल्ली बाईपास रोड पर चलते हुये जयपुर गोल्डन पैट्रोल पम्प के ठीक सामने स्थित पावर हाउस तक। (दिल्ली बाईपास रोड शामिल है एवं रोड का पूर्वी दिशा का सम्पूर्ण हिस्सा शामिल है।) | 23167 |
| 150 | आमेर विधान सभा क्षेत्र | 150 | ऐयर फोर्स स्टेशन से पश्चिमी तरफ पुराने वार्ड की काल्पनिक रेखा वाली टेडी-मेडी सीमा में पहाड़ी क्षेत्र को शामिल करते हुये उत्तर दिशा की तरफ चलते हुये कनक घाटी, काला महादेव, चौमोरिया, जयगढ़, देवीखोल को शामिल करते हुये उत्तरी पूर्वी दिशा में काल्पनिक रेखा के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्र को शामिल करते हुये महारानी की छतरियां, कुण्डा होते हुये जयपुर गोल्डन पैट्रोल पम्प तक, जयपुर गोल्डन पैट्रोल पम्प से दक्षिण दिशा की तरफ दिल्ली बाईपास रोड पर चलते हुये सियाराम बाबा की ढूंगरी, नई माता का मन्दिर, पहाड़ी क्षेत्र को शामिल करते हुये सड़वा मोड तिराहा तक, सड़वा मोड तिराहे से पहाड़ी क्षेत्र को विच्छेदित करती हुई पश्चिम दिशा की तरफ काल्पनिक रेखा से ऐयर फोर्स स्टेशन तक। (दिल्ली बाईपास रोड के पश्चिमी तरफ का सम्पूर्ण भाग शामिल है, दिल्ली बाईपास रोड शामिल नहीं है।) | 26863 |
| | | | कुल योग | 3046165 |

आयुक्त
नगर निगम जयपुर

•

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।